



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092023-248853  
CG-DL-E-21092023-248853

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3960]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2023/भाद्र 29, 1945

No. 3960]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023/BHADRA 29, 1945

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे)

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2023

**का.आ. 4127(अ).**—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 के (1989 का 24), 2008 के रेल (संशोधित) अधिनियम (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में कार्य निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, तथा आपरेशन के लिए विशेष रेल परियोजना "हरियाणा आर्बिटल रेल कारिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर, खरखौदा" नई ब्रांड गेज दोहरी रेल लाइन कि०मी० 63.350 से कि०मी० 99.185 तक लोक परियोजन के लिए यह भूमि आपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, उपमण्डल अधिकारी (सिविल) एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) बहादुरगढ़ को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अननुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा 2 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा, और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

## अनुसूची

हरियाणा राज्य के जिला झज्जर में विशेष परियोजना "हरियाणा आर्बिटल रेल कारिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर, खरखोदा" नई ब्रांड गेज दोहरी रेल लाइन कि० मी० 63.350 से कि०मी० 99.185 तक के लिए अर्जन की जानी वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : झज्जर				
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बादली				
ग्राम का नाम : मुण्डाखेड़ा				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	9// 22 min	चाही	निजी	0.0076
2	11// 2/2 min	चाही	निजी	0.0076
3	11// 8 min	चाही	निजी	0.0051
4	11// 13/1/2 min	चाही	निजी	0.0026
5	11// 18/1/1 min	चाही	निजी	0.0026
6	21// 21 min	चाही	निजी	0.0026
7	22// 3/2 min	चाही	निजी	0.0026
8	22// 15 min	चाही	निजी	0.0051
9	22// 17/1 min	चाही	निजी	0.0026
10	22// 25/2 min	चाही	निजी	0.0051
11	26// 11 min	बारानी	निजी	0.2023
12	26// 19/1 min	बारानी	निजी	0.0051
13	26// 22/2 min	बारानी	निजी	0.0026
14	34// 2/2/1 min	चाही	निजी	0.0026
15	34// 2/2/2 min	चाही	निजी	0.0051
16	34// 3/2 min	चाही	निजी	0.0076
17	34// 8/1 min	चाही	निजी	0.0102
18	34// 13/2 min	चाही	निजी	0.0051
19	34// 17/2 min	चाही	निजी	0.0026
20	34// 18/1 min	चाही	निजी	0.0076
21	34// 24 min	चाही	निजी	0.0051
22	39// 3/1/2 min	बारानी	निजी	0.0026
23	39// 4/2 min	बारानी	निजी	0.0102
24	39// 7/1 min	बारानी	निजी	0.0051
25	40// 21/1 min	गै. मु.	निजी	0.0026

26	45// 1/2 min	बारानी	निजी	0.0051
27	45// 10/2 min	चाही	निजी	0.0051
28	45// 11/2 min	चाही	निजी	0.0026
29	45// 12 min	बारानी	निजी	0.0026
30	45// 19 min	बारानी	निजी	0.0051
31	45// 22/2 min	बारानी	निजी	0.0102
32	53// 2/2/1 min	बारानी	निजी	0.0102
33	53// 2/2/2 min	गै, मु, नाला	सरकारी	0.0026
34	53// 3/1 min	बारानी	निजी	0.0076
35	53// 3/2 min	बारानी	निजी	0.0026
36	53// 8/1/1 min	गै, मु, नाला	सरकारी	0.0051
37	53// 8/1/2 min	बारानी	निजी	0.0026
38	53// 8/2 min	बारानी	निजी	0.0203
39	53// 13/1/2 min	बारानी	निजी	0.0051
40	53// 13/2 min	बारानी	निजी	0.0026
41	53// 13/3 min	चाही	निजी	0.0152
42	53// 17 min	चाही	निजी	0.0203
43	53// 18/1 min	चाही	निजी	0.0102
44	53// 23/2 min	बारानी	निजी	0.0076
45	53// 24 min	बारानी	निजी	0.0253
46	56// 4/2 min	चाही	निजी	0.0102
47	56// 6/1 min	बारानी	निजी	0.0051
48	56// 7/1/1 min	बारानी	निजी	0.0026
49	56// 15/1 min	बारानी	निजी	0.0026
50	56// 15/2 min	बारानी	निजी	0.0076
51	56// 16/1/1 min	बारानी	निजी	0.0051
52	56// 16/2/1 min	बारानी	निजी	0.0026
53	56// 25/1/2 min	बारानी	निजी	0.0026
54	56// 25/2/2 min	बारानी	निजी	0.0026
55	81 min	गै. मु. रास्ता	सरकारी	0.0026
56	84 min	गै. मु. रास्ता	निजी	0.0076
57	488 min	गै. मु. रास्ता	निजी	0.0051
58	493 min	गै. मु. रास्ता	निजी	0.0026
59	500 min	गै. मु. रास्ता	निजी	0.0026
<b>जोड़</b>				<b>0.5494</b>

तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बादली				
ग्राम का नाम : ईस्माईलपुर				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2// 4 min	चाही	निजी	0.0076
2	2// 6/2 min	बारानी	निजी	0.0102
3	2// 7/1 min	ब, कदीम	निजी	0.0076
4	2// 15 min	बारानी	निजी	0.0253
5	2// 16/1 min	बारानी	निजी	0.0279
6	2// 25/2 min	बारानी	निजी	0.0102
7	4// 1/2 min	बारानी	निजी	0.0051
8	4// 10/2 min	बारानी	निजी	0.0051
9	56 min	गै. मु. रास्ता	निजी	0.0051
10	297 min	गै. मु. रास्ता	निजी	0.0025
जोड़				<b>0.1066</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बादली				
ग्राम का नाम : देवरखाना				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	32// 8 min	चाही	निजी	0.0076
2	32// 13 min	चाही	निजी	0.0506
3	32// 14 min	चाही	निजी	0.0102
4	32// 17/1 min	चाही	निजी	0.0152
5	32// 17/2 min	गै. मु.	सरकारी	0.0026
6	32// 26 min	गै. मु.	निजी	0.0026
7	33// 5/1 min	चाही	निजी	0.0076
8	59 min	गै. मु. डेन	सरकारी	0.0203
जोड़				<b>0.1167</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बादली				
ग्राम का नाम : लगरपुर				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	20// 8/2/1 min	नहरी	निजी	0.0026
2	20// 13/2/2 min	चाही	निजी	0.0026
3	29// 25/2 min	नहरी	निजी	0.0102

4	30// 5/2 min	नहरी	निजी	0.0026
5	30// 15/2 min	नहरी	निजी	0.0026
6	31// 1 min	नहरी	निजी	0.0026
7	31// 10 min	चाही	निजी	0.0102
8	31// 11/2 min	चाही	निजी	0.0102
9	31// 20/1 min	चाही	निजी	0.0051
10	31// 21/2 min	चाही	निजी	0.0051
11	31// 22 min	चाही	निजी	0.0076
12	34// 2 min	चाही	निजी	0.0051
13	34// 9 min	चाही	निजी	0.0102
14	34// 18 min	चाही	निजी	0.0127
15	34// 23/1 min	चाही	निजी	0.0152
16	34// 23/2 min	चाही	निजी	0.0026
17	37// 3 min	चाही	निजी	0.0152
18	121 min	गै, मु, रास्ता	निजी	0.0051
19	136 min	गै, मु, रास्ता	निजी	0.0026
20	154 min	गै, मु, दहाना	निजी	0.0026
21	155 min	गै, मु, दहाना	निजी	0.0026
<b>जोड़</b>				<b>0.1353</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बादली				
ग्राम का नाम : दरियापूर				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्यामुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3// 17/2 min	चाही	निजी	0.0506
2	3// 18 min	नहरी	निजी	0.0076
3	3// 24/1/1 min	चाही	निजी	0.0203
4	3// 24/1/2 min	नहरी	निजी	0.0936
5	13// 3/2 min	नहरी	निजी	0.0127
6	13// 4/1 min	नहरी	निजी	0.0987
7	13// 7/2 min	नहरी	निजी	0.1063
8	13// 8/1 min	नहरी	निजी	0.0405
9	13// 13/2 min	नहरी	निजी	0.0608
10	13// 14/1 min	नहरी	निजी	0.0911
11	13// 17/2 min	नहरी	निजी	0.0759
12	13// 18/1 min	नहरी	निजी	0.0860
13	13// 23/2 min	चाही	निजी	0.1113
14	13// 24/1 min	चाही	निजी	0.0608
15	18// 3/2/1 min	चाही	निजी	0.0608

16	18// 3/2/2 min	चाही	निजी	0.0734
17	18// 4/1 min	चाही	निजी	0.0405
18	18// 4/2/1 min	चाही	निजी	0.0152
19	18// 7/2 min	चाही	निजी	0.0253
20	18// 8 min	चाही	निजी	0.1569
21	18// 13/2 min	चाही	निजी	0.1670
22	18// 14/1 min	चाही	निजी	0.0127
23	18// 17/2 min	चाही	निजी	0.0026
24	18// 18/2 min	चाही	निजी	0.1999
25	18// 22/2/2 min	चाही	निजी	0.0026
26	18// 23/1 min	चाही	निजी	0.1999
27	29// 3/1/1 min	चाही	निजी	0.0430
28	29// 3/1/2 min	चाही	निजी	0.0481
29	29// 3/1/3 min	चाही	निजी	0.0456
30	29// 3/1/4 min	चाही	निजी	0.0355
31	29// 3/1/5 min	चाही	निजी	0.0430
32	29// 8/2 min	चाही	निजी	0.2327
33	29// 13/1/1 min	चाही	निजी	0.0152
34	29// 13/2/2/1/2 min	चाही	निजी	0.2327
35	29// 18/1/1/2 min	चाही	निजी	0.0633
36	29// 18/1/1/2/2 min	चाही	निजी	0.0000
37	29// 18/1/2/2 min	चाही	निजी	0.0051
38	29// 18/2/1 min	चाही	निजी	0.0456
39	29// 18/2/2/1/1 min	चाही	निजी	0.0481
40	29// 18/2/2/1/1/2 min	चाही	निजी	0.0051
41	29// 18/2/2/2 min	चाही	निजी	0.0127
42	29// 18/2/2/1/2/1 min	चाही	निजी	0.0709
43	29// 18/2/2/1/2/2 min	चाही	निजी	0.0152
44	29// 18/3/1/2/1 min	चाही	निजी	0.0203
45	29// 18/3/2 min	चाही	निजी	0.0051
46	29// 19/2/1/2 min	चाही	निजी	0.0051
47	29// 22/2/1 min	चाही	निजी	0.0026
48	29// 23/1/1 min	चाही	निजी	0.0178
49	29// 23/1/2 min	चाही	निजी	0.0026
50	29// 23/3/1 min	चाही	निजी	0.1341
51	29// 27/1/1 min	चाही	निजी	0.0127
52	29// 27/1/2 min	चाही	निजी	0.0026
53	29// 27/2 min	चाही	निजी	0.0203

54	31// 3/1/1/1/1 min	चाही	निजी	0.0658
55	31// 8/2/2 min	चाही	निजी	0.0658
56	31// 12/2/2 min	चाही	निजी	0.0026
57	31// 13/1 min	चाही	निजी	0.0608
58	31// 18/2 min	नहरी	निजी	0.0557
59	31// 23/1 min	नहरी	निजी	0.0355
60	44// 3/1/1 min	नहरी	निजी	0.0076
61	44// 3/1/2 min	चाही	निजी	0.0304
62	44// 8/1/2 min	चाही	निजी	0.0127
63	44// 8/2/2 min	चाही	निजी	0.0304
64	44// 13/1 min	चाही	निजी	0.0405
65	44// 18/1 min	चाही	निजी	0.0152
66	44// 18/2 min	चाही	निजी	0.0203
67	44// 23/1 min	चाही	निजी	0.0051
68	44// 23/2 min	चाही	निजी	0.0253
69	44// 24/1 min	चाही	निजी	0.0102
70	44// 24/2 min	चाही	निजी	0.0026
71	45// 4/1/1 min	चाही	निजी	0.0026
72	45// 4/1/2 min	चाही	निजी	0.0026
73	45// 4/2/1 min	चाही	निजी	0.0860
74	45// 4/2/2 min	चाही	निजी	0.0228
75	45// 7/1 min	चाही	निजी	0.0304
76	45// 14/2 min	चाही	निजी	0.0304
77	45// 17/1 min	चाही	निजी	0.0304
78	45// 25/1 min	चाही	निजी	0.0152
79	45// 25/2 min	चाही	निजी	0.0127
80	58// 5/1/1 min	चाही	निजी	0.0051
81	78 min	गै मु रास्ता	निजी / सरकारी	0.0127
82	108 min	गै मु दहाना	निजी / सरकारी	0.0076
83	112 min	गै मु दहाना	निजी / सरकारी	0.0026
84	401 min	गै मु रास्ता	निजी / सरकारी	0.0102
85	402 min	गै मु रास्ता	निजी / सरकारी	0.0127
86	445 min	गै मु रास्ता	निजी / सरकारी	0.0051
87	448 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0051
88	453 min	गै मु रास्ता	निजी / सरकारी	0.0178
<b>जोड़</b>				<b>3.8565</b>

तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बादली				
ग्राम का नाम : बादली				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्ततल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8// 11 min	नहरी	निजी	0.0051
2	8// 20 min	नहरी	निजी	0.0076
3	8// 21 min	नहरी	निजी	0.0355
4	9// 5/2 min	नहरी	निजी	0.0253
5	9// 6/1 min	नहरी	निजी	0.0253
6	9// 15/1/2 min	नहरी	निजी	0.0102
7	9// 15/2/2 min	नहरी	निजी	0.0203
8	9// 16/1 min	नहरी	निजी	0.0228
9	25// 1 min	नहरी	निजी	0.0380
10	25// 2 min	नहरी	निजी	0.0026
11	25// 9 min	नहरी	निजी	0.0051
12	25// 10 min	नहरी	निजी	0.0253
13	25// 11/2 min	नहरी	निजी	0.0355
14	25// 12 min	नहरी	निजी	0.0102
15	25// 19/1 min	नहरी	निजी	0.0127
16	25// 19/2 min	नहरी	निजी	0.0380
17	25// 20/1 min	नहरी	निजी	0.0203
18	25// 22/1 min	नहरी	निजी	0.0152
19	25// 22/2 min	नहरी	निजी	0.0380
20	25// 22/3 min	चाही	निजी	0.0102
21	25// 23/1 min	चाही	निजी	0.0127
22	29// 2 min	नहरी	निजी	0.0658
23	29// 3/1 min	चाही	निजी	0.0127
24	29// 3/2 min	नहरी	निजी	0.0178
25	29// 8/1 min	नहरी	निजी	0.0203
26	29// 9 min	नहरी	निजी	0.0658
27	29// 12/2 min	नहरी	निजी	0.0355
28	29// 13/1 min	नहरी	निजी	0.0178
29	29// 13/2 min	ब,कदीम	निजी	0.0355
30	29// 14 min	ब,कदीम	निजी	0.0026
31	29// 17 min	नहरी	निजी	0.0026
32	29// 18 min	नहरी	निजी	0.0279
33	29// 19 min	नहरी	निजी	0.0026
34	29// 23/1 min	गै मु प्लाट	निजी	0.0127
35	29// 23/2 min	गै मु प्लाट	निजी	0.0152
36	29// 24 min	चाही	निजी	0.0304
37	46// 4/2 min	नहरी	निजी	0.0102
38	46// 16 min	नहरी	निजी	0.1215



39	46// 25 min	नहरी	निजी	0.0253
40	47// 20 min	नहरी	निजी	0.0456
41	47// 21 min	नहरी	निजी	0.1366
42	53// 1 min	नहरी	निजी	0.1619
43	53// 10 min	नहरी	निजी	0.1670
44	53// 11 min	चाही	निजी	0.1164
45	53// 12 min	चाही	निजी	0.0456
46	53// 19 min	नहरी	निजी	0.1392
47	53// 20 min	नहरी	निजी	0.0203
48	53// 22/1 min	नहरी	निजी	0.1113
49	53// 22/2 min	नहरी	निजी	0.0506
50	54// 16 min	नहरी	निजी	0.0026
51	54// 25/2 min	नहरी	निजी	0.0102
52	77// 1/1 min	नहरी	निजी	0.0026
53	77// 2/1 min	नहरी	निजी	0.0051
54	77// 2/2 min	नहरी	निजी	0.1569
55	77// 8 min	नहरी	निजी	0.0506
56	77// 9/1 min	ब,कदीम	निजी	0.1113
57	77// 12/2 min	नहरी	निजी	0.0026
58	77// 12/3 min	नहरी	निजी	0.0127
59	77// 13 min	नहरी	निजी	0.1417
60	77// 18 min	नहरी	निजी	0.1569
61	77// 19 min	नहरी	निजी	0.0127
62	77// 23 min	नहरी	निजी	0.1518
63	87// 3 min	नहरी	निजी	0.1012
64	87// 4 min	नहरी	निजी	0.0557
65	87// 7 min	नहरी	निजी	0.1493
66	87// 8 min	नहरी	निजी	0.0127
67	87// 14 min	नहरी	निजी	0.1670
68	87// 16 min	चाही	निजी	0.0026
69	87// 17 min	चाही	निजी	0.1619
70	87// 19/1/2 min	चाही	निजी	0.0026
71	87// 24 min	चाही	निजी	0.0911
72	87// 25 min	चाही	निजी	0.0658
73	114// 14 min	नहरी	निजी	0.0506
74	114// 15 min	नहरी	निजी	0.3592
75	114// 16 min	चाही	निजी	0.0456
76	114// 17/1 min	नहरी	निजी	0.0481
77	114// 17/2 min	नहरी	निजी	0.0026
78	114// 24/1 min	नहरी	निजी	0.0304
79	114// 24/2 min	गै मु	निजी	0.0051
80	114// 25/1/1 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0026
81	114// 25/1/2 min	चाही	निजी	0.0329
82	114// 25/1/2/2 min	चाही	निजी	0.0102

83	114// 25/2/2 min	चाही	निजी	0.0051
84	125// 1 min	चाही	निजी	0.0076
85	125// 10 min	चाही	निजी	0.0405
86	125// 11 min	चाही	निजी	0.0405
87	125// 20 min	चाही	निजी	0.0380
88	125// 21 min	ब,कदीम	निजी	0.0683
89	125// 22 min	नहरी	निजी	0.0076
90	126// 4 min	नहरी	निजी	0.0127
91	126// 5/2 min	नहरी	निजी	0.0608
92	126// 6 min	नहरी	निजी	0.0355
93	126// 15/2 min	नहरी	निजी	0.0355
94	126// 16/1 min	नहरी	निजी	0.0279
95	126// 25/2 min	बरानी	निजी	0.0051
96	148// 1 min	नहरी	निजी	0.0405
97	148// 2 min	चाही	निजी	0.0405
98	148// 9 min	चाही	निजी	0.0355
99	148// 10/1 min	चाही	निजी	0.0456
100	148// 11/2 min	चाही	निजी	0.0329
101	148// 12 min	चाही	निजी	0.0279
102	148// 18 min	नहरी	निजी	0.0051
103	148// 19 min	नहरी	निजी	0.0582
104	148// 20 min	नहरी	निजी	0.0026
105	148// 22 min	नहरी	निजी	0.0405
106	148// 23 min	चाही	निजी	0.0355
107	157// 2/1 min	चाही	निजी	0.0430
108	157// 2/2 min	चाही	निजी	0.0076
109	157// 3 min	चाही	निजी	0.0304
110	157// 8 min	चाही	निजी	0.0304
111	157// 9/1 min	चाही	निजी	0.0430
112	157// 13 min	चाही	निजी	0.0430
113	157// 14 min	चाही	निजी	0.0026
114	157// 17 min	चाही	निजी	0.0102
115	157// 18 min	चाही	निजी	0.0430
116	157// 23 min	चाही	निजी	0.0506
117	157// 24 min	चाही	निजी	0.0102
118	175// 3/2/1 min	चाही	निजी	0.0102
119	175// 3/2/2 min	चाही	निजी	0.0380
120	175// 4/1/1 min	चाही	निजी	0.0026
121	175// 4/1/2 min	चाही	निजी	0.0152
122	175// 7 min	चाही	निजी	0.0203
123	175// 8/1 min	चाही	निजी	0.0658
124	175// 13/2 min	चाही	निजी	0.0506
125	175// 14 min	चाही	निजी	0.0203
126	175// 17 min	चाही	निजी	0.0304

127	175// 18/1 min	चाही	निजी	0.0506
128	175// 23/2/1 min	चाही	निजी	0.0253
129	175// 23/2/2 min	चाही	निजी	0.0178
130	175// 24 min	चाही	निजी	0.0380
131	186// 3 min	चाही	निजी	0.0026
132	186// 4/1/2 min	गै मु	निजी	0.0026
133	186// 4/2/2/1 min	चाही	निजी	0.0304
134	186// 4/2/2/2 min	चाही	निजी	0.0102
135	186// 7/1/1 min	चाही	निजी	0.0253
136	186// 7/1/2 min	चाही	निजी	0.0203
137	186// 8 min	चाही	निजी	0.0456
138	186// 13 min	गै म नहर	सरकारी	0.1113
139	186// 14/1 min	गै म नहर	सरकारी	0.0127
140	186// 14/2 min	गै म नहर	सरकारी	0.0102
141	186// 18/2 min	गै म नहर	सरकारी	0.0608
142	186// 23/1/1 min	गै म नहर	सरकारी	0.0456
143	186// 23/2/1 min	गै म नहर	सरकारी	0.0152
144	186// 24/2 min	चाही	निजी	0.0329
145	212// 3/2/1 min	चाही	निजी	0.0405
146	212// 4/1 min	चाही	निजी	0.0203
147	212// 4/2 min	चाही	निजी	0.0279
148	212// 7/2/1 min	चाही	निजी	0.0203
149	212// 7/2/2 min	चाही	निजी	0.0152
150	212// 8 min	गै मु सडक	सरकारी	0.0279
151	212// 13 min	बरानी	निजी	0.0102
152	212// 14/1/1 min	बरानी	निजी	0.0101
153	212// 14/1/2 min	बरानी	निजी	0.0532
154	212// 17/2 min	बरानी	निजी	0.0683
155	212// 26 min	बरानी	निजी	0.0026
156	212// 27 min	चाही / गै मु	सरकारी / निजी	0.0152
157	264// 9/1/1 min	चाही	निजी	0.0026
158	264// 18/1 min	चाही	निजी	0.1467
159	264// 23/2 min	चाही	निजी	0.0051
160	284// 3/2/2 min	चाही	निजी	0.0026
161	286// 4/2/1 min	चाही	निजी	0.0076
162	286// 6 min	चाही	निजी	0.0051
163	286// 15/2/1 min	चाही	निजी	0.0810
164	286// 25/2/1 min	चाही	निजी	0.0051
165	309// 19/1 min	चाही	निजी	0.0051
166	28 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0127
167	621 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0380
168	622 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0380
169	623 min	गै मु रास्ता	निजी	0.5261
170	625 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0203

171	628 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0329
172	650 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0127
173	653 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0152
174	2068 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0026
175	2069 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0026
176	2087 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0051
177	2088 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0076
178	2089 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0026
179	2090 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0026
180	2104 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0026
181	2126 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0102
<b>जोड़</b>				<b>7.3266</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बादली				
ग्राम का नाम : माजरी				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	4// 10 min	चाही	निजी	0.0203
2	4// 11 min	चाही	निजी	0.0253
3	4// 20 min	चाही	निजी	0.0253
3	4// 21 min	चाही	निजी	0.0102
4	5// 6/2/1 min	चाही	निजी	0.0026
5	9// 20 min	चाही	निजी	0.0051
<b>जोड़</b>				<b>0.0888</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बादली				
ग्राम का नाम : गुभाना				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	13// 6/2 min	चाही	निजी	0.0026
2	13// 7/1 min	चाही	निजी	0.0076
3	13// 14/2 min	चाही	निजी	0.0026
4	13// 15 min	चाही	निजी	0.0102
5	13// 16 min	चाही	निजी	0.0203
6	13// 25 min	चाही	निजी	0.0203
7	41// 20/2 min	चाही	निजी	0.0253
8	41// 21 min	चाही	निजी	0.0405
9	42// 5 min	चाही	निजी	0.0203
10	42// 6/1 min	चाही	निजी	0.0253
11	42// 15/2 min	बरानी	निजी	0.0253
12	42// 16/1 min	बरानी	निजी	0.0076
13	45// 1/1 min	बरानी	निजी	0.0228

14	45// 1/2 min	बरानी	निजी	0.0051
15	129 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0051
16	150 min	गै मु दहाना	निजी	0.0025
17	835 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0250
<b>जोड़</b>				<b>0.2684</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बादली				
ग्राम का नाम : बुपनिया				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2// 16/1 min	नहरी	निजी	0.0228
2	2// 25/2/1 min	नहरी	निजी	0.0178
3	2// 25/2/2 min	नहरी	निजी	0.0253
4	12// 4/2/1 min	नहरी	निजी	0.0026
5	12// 4/2/2 min	नहरी	निजी	0.0102
6	12// 5 min	नहरी	निजी	0.0279
7	12// 7/1/1/1 min	नहरी	निजी	0.0102
8	12// 7/1/1/2 min	नहरी	निजी	0.0102
9	12// 7/1/1/3 min	नहरी	निजी	0.0051
10	12// 14/2/1 min	नहरी	निजी	0.0051
11	12// 14/2/2 min	नहरी	निजी	0.0051
12	12// 14/2/3 min	नहरी	निजी	0.0026
13	12// 14/2/4 min	नहरी	निजी	0.0026
14	12// 17/2/3 min	नहरी	निजी	0.0102
15	12// 24/1 min	नहरी	निजी	0.0102
16	17// 3/2 min	नहरी	निजी	0.0076
17	17// 4 min	नहरी	निजी	0.0051
18	17// 8/1 min	नहरी	निजी	0.0102
19	17// 13/2 min	नहरी	निजी	0.0102
20	17// 18/1 min	नहरी	निजी	0.0102
21	17// 23/2 min	नहरी	निजी	0.0102
22	34// 3/3 min	नहरी	निजी	0.0051
23	34// 8/2 min	नहरी	निजी	0.0051
24	34// 13/1 min	नहरी	निजी	0.0102
25	34// 18 min	नहरी	निजी	0.0102
26	34// 23 min	नहरी	निजी	0.0304
27	40// 3 min	नहरी	निजी	0.0355
28	40// 8 min	नहरी	निजी	0.0102
29	40// 13/1 min	चाही	निजी	0.0051
30	40// 13/2 min	नहरी	निजी	0.0026
31	40// 18 min	नहरी	निजी	0.0228
32	40// 19/1 min	चाही	निजी	0.0102

33	40// 22 min	नहरी	निजी	0.1012
34	40// 23 min	नहरी	निजी	0.0076
35	60// 2 min	नहरी	निजी	0.0885
36	60// 9/1 min	बरानी	निजी	0.0304
37	60// 12/2 min	बरानी	निजी	0.0178
38	60// 19/1 min	बरानी	निजी	0.0102
39	60// 22 min	बरानी	निजी	0.0152
40	65// 2/1 min	नहरी	निजी	0.0127
41	65// 2/2 min	नहरी	निजी	0.0026
42	65// 9/2 min	नहरी	निजी	0.0152
43	65// 12/1 min	नहरी	निजी	0.0051
44	89// 2 min	चाही	निजी	0.0127
45	89// 9/2/2 min	चाही	निजी	0.0253
46	89// 12 min	चाही	निजी	0.0304
47	89// 19 min	नहरी	निजी	0.0304
48	89// 20/1/2/1 min	नहरी	निजी	0.0026
49	89// 21/2 min	नहरी	निजी	0.0102
50	89// 22 min	नहरी	निजी	0.0203
51	96// 1/1/2 min	नहरी	निजी	0.0076
52	96// 1/2/2 min	नहरी	निजी	0.0203
53	96// 2/1 min	नहरी	निजी	0.0026
54	96// 10/2 min	नहरी	निजी	0.0253
55	96// 11/2 min	नहरी	निजी	0.0304
56	96// 20/2 min	नहरी	निजी	0.0152
57	121// 1 min	नहरी	निजी	0.0152
58	121// 10/1 min	नहरी	निजी	0.0051
59	121// 11 min	नहरी	निजी	0.0051
60	121// 20 min	चाही	निजी	0.0026
61	121// 21 min	नहरी	निजी	0.0102
62	122// 6/1 min	नहरी	निजी	0.0304
63	127// 25/2/2 min	नहरी	निजी	0.0076
64	128// 1 min	चाही	निजी	0.0102
65	128// 10 min	चाही	निजी	0.0102
66	128// 11 min	चाही	निजी	0.0051
67	128// 20/2 min	चाही	निजी	0.0026
68	128// 21 min	चाही	निजी	0.0127
69	151// 10 min	नहरी	निजी	0.0102
70	151// 11 min	नहरी	निजी	0.0102
71	151// 20/1/2 min	नहरी	निजी	0.0051
72	151// 20/2/2 min	भूड	निजी	0.0026
73	151// 21/2 min	नहरी	निजी	0.0051
74	160// 1/2 min	नहरी	निजी	0.0051
75	160// 10/1 min	नहरी	निजी	0.0051
76	160// 11/2 min	नहरी	निजी	0.0076

77	160// 12/1 min	नहरी	निजी	0.0026
78	160// 19/2 min	नहरी	निजी	0.0152
79	160// 22/1 min	नहरी	निजी	0.0026
80	160// 22/2 min	नहरी	निजी	0.0026
81	180// 2 min	नहरी	निजी	0.0102
82	180// 9/1 min	नहरी	निजी	0.0102
83	180// 12/2 min	नहरी	निजी	0.0051
84	187// 2/1 min	नहरी	निजी	0.0152
85	187// 2/2/2 min	नहरी	निजी	0.0026
86	187// 8 min	नहरी	निजी	0.0152
87	187// 13/2 min	नहरी	निजी	0.0026
88	187// 18/1 min	नहरी	निजी	0.0102
89	187// 23/1/2 min	नहरी	निजी	0.0026
90	187// 23/2/2 min	बरानी	निजी	0.0051
91	203// 3/3/2 min	नहरी	निजी	0.0026
92	203// 4 min	चाही	निजी	0.0051
93	203// 7/4 min	नहरी	निजी	0.0051
94	203// 14 min	नहरी	निजी	0.0051
95	203// 17/2/1 min	नहरी	निजी	0.0051
96	203// 17/3/2 min	नहरी	निजी	0.0026
97	203// 24/2 min	नहरी	निजी	0.0152
98	208// 4/2 min	बरानी	निजी	0.0102
99	237 min	गै मु	सरकारी / निजी	0.0102
100	242 min	गै मु दहाना	निजी	0.0025
101	246 min	गै मु दहाना	निजी	0.0025
102	247 min	गै मु दहाना	निजी	0.0025
103	259 min	गै, मु, डेन्न	निजी	0.1948
104	261 min	गै मु दहाना	निजी	0.0025
105	268 min	गै मु दहाना	निजी	0.0025
106	271 min	गै मु दहाना	निजी	0.0025
107	276 min	गै मु दहाना	निजी	0.0025
108	284 min	गै मु दहाना	निजी	0.0025
109	293 min	गै मु दहाना	निजी	0.0025
110	302 min	गै मु सडक	निजी	0.0025
111	306 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0051
112	307 min	गै मु सडक	निजी	0.0026
113	1476 min	गै मु सडक	निजी	0.0026
114	1503 min	गै मु सडक	निजी	0.0026
115	1504 min	गै मु सडक	निजी	0.0026
116	1505 min	गै मु	सरकारी / निजी	0.0026
117	1509 min	गै मु सडक	निजी	0.0026
118	1516 min	गै मु सडक	निजी	0.0026
<b>जोड़</b>				<b>1.4829</b>

तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बहादुरगढ़				
ग्राम का नाम : डाबौदा खूर्द				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि को प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	4// 3 min	बरानी	निजी	0.0253
2	4// 8/1 min	चाही	निजी	0.0279
3	4// 8/2 min	चाही	निजी	0.0481
4	4// 13/2 min	बरानी	निजी	0.0658
5	4// 18/1 min	गै, मु, डेन्न	सरकारी	0.0102
6	4// 18/2/1 min	गै, मु, डेन्न	सरकारी	0.0228
7	4// 23/1/1 min	बरानी	निजी	0.0405
8	4// 23/1/2 min	बरानी	निजी	0.0304
9	21// 12/2/1 min	गै मु सडक	निजी	0.0026
10	21// 12/2/2 min	बरानी	निजी	0.0026
11	21// 19/1/2 min	बरानी	निजी	0.0026
12	21// 19/2 min	चाही	निजी	0.0102
13	21// 21/2 min	चाही	निजी	0.0026
14	21// 22 min	बरानी	निजी	0.0051
15	32// 16/2/2 min	बरानी	निजी	0.0026
16	33// 10/3 min	बरानी	निजी	0.0886
17	33// 10/4 min	बरानी	निजी	0.0076
18	33// 11/1/1 min	बरानी	निजी	0.0076
19	33// 11/1/2 min	बरानी	निजी	0.0456
20	52// 6/1/1 min	बरानी	निजी	0.0152
21	63// 18/1 min	नहरी	निजी	0.0051
22	63// 22/2 min	बरानी	निजी	0.0051
23	63// 23 min	नहरी	निजी	0.0051
24	82// 2/2 min	नहरी	निजी	0.0203
25	82// 9/1 min	नहरी	निजी	0.0304
26	82// 12/2 min	गै, मु नहरी	निजी	0.0355
27	82// 19/1 min	नहरी	निजी	0.0152
28	82// 20/2/2 min	नहरी	निजी	0.0203
29	82// 21/2 min	नहरी	निजी	0.0279
30	90// 15/1/1/2 min	नहरी	निजी	0.0026
31	90// 15/1/2/2 min	नहरी	निजी	0.0076
32	90// 15/2/1/2 min	नहरी	निजी	0.0127
33	90// 15/2/2/2 min	नहरी	निजी	0.0051
34	90// 16/2 min	नहरी	निजी	0.0127
35	91// 1/1/2 min	नहरी	निजी	0.0102
36	91// 1/2 min	चाही	निजी	0.0051
37	91// 10/2 min	चाही	निजी	0.0355
38	91// 11/1 min	चाही	निजी	0.0051



39	140 min	गै मु दहाना	सरकारी	0.0026
40	142 min	गै मु दहाना	सरकारी	0.0026
41	162 min	गै मु रास्ता	सरकारी	0.0102
42	163 min	गै मु सडक	सरकारी	0.0810
43	171 min	गै मु सडक	सरकारी	0.0026
44	472 min	गै मु रास्ता	सरकारी	0.0026
<b>जोड़</b>				<b>0.8270</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बहादुरगढ़				
ग्राम का नाम : मेहंदीपुर				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5// 17/1 min	चाही	निजी	0.0076
2	5// 24/1 min	चाही	निजी	0.0152
3	5// 24/2 min	चाही	निजी	0.0051
4	8// 4 min	चाही	निजी	0.0127
5	8// 8/1/2 min	नहरी	निजी	0.0076
6	8// 13/1 min	चाही	निजी	0.0102
7	8// 13/2 min	नहरी	निजी	0.0051
8	8// 18/1/2 min	नहरी	निजी	0.0076
9	8// 18/2 min	चाही	निजी	0.0051
10	8// 19/3/1 min	चाही	निजी	0.0152
11	8// 19/4/1 min	चाही	निजी	0.0026
12	8// 21 min	चाही	निजी	0.0051
13	8// 22/2 min	चाही नहरी	निजी	0.0102
14	17// 2/1 min	नहरी	निजी	0.0076
15	17// 2/2 min	नहरी	निजी	0.0051
16	17// 9 min	नहरी	निजी	0.0026
17	17// 10/1 min	नहरी	निजी	0.0051
18	17// 11/1/2 min	नहरी	निजी	0.0102
19	17// 11/2 min	नहरी	निजी	0.0102
20	17// 20 min	नहरी	निजी	0.0152
21	17// 21/1 min	नहरी	निजी	0.0026
22	18// 16/1 min	बरानी	निजी	0.0026
23	18// 25/2/2 min	नहरी	निजी	0.0051
24	18// 25/3 min	गै मु रास्ता	निजी	0.0026
25	19// 4/2 min	नहरी	निजी	0.0026
26	19// 5/1 min	नहरी	निजी	0.0127
27	19// 5/2/2 min	नहरी	निजी	0.0102
28	19// 6/1 min	नहरी	निजी	0.0076
29	19// 6/2 min	नहरी	निजी	0.0026
30	19// 14/4 min	नहरी	निजी	0.0076
31	19// 15 min	नहरी	निजी	0.0178

32	19// 16/1 min	नहरी	निजी	0.0026
33	19// 17/1/1 min	नहरी	निजी	0.0051
34	19// 24 min	नहरी	निजी	0.2630
35	30// 4 min	नहरी	निजी	0.0203
36	30// 7/2 min	नहरी	निजी	0.0253
37	30// 14 min	नहरी	निजी	0.0355
38	30// 17/3 min	नहरी	निजी	0.0329
39	30// 18/1/1 min	नहरी	निजी	0.0051
40	30// 18/2/2 min	नहरी	निजी	0.0076
41	30// 23/2 min	नहरी	निजी	0.0430
42	30// 24 min	नहरी	निजी	0.0026
43	30// 26 min	नहरी	निजी	0.0026
44	31// 3/2 min	नहरी	निजी	0.0380
45	64 min	गै, मु सडक /दहाना	सरकारी / निजी	0.0026
46	73 min	गै, मु सडक /दहाना	सरकारी / निजी	0.0026
47	76 min	गै, मु सडक /दहाना	सरकारी / निजी	0.0026
48	78/2/15 min	गै मु	निजी	0.0051
49	155 min	गै, मु सडक /दहाना	सरकारी / निजी	0.0026
50	172 min	गै, मु सडक /दहाना	सरकारी / निजी	0.0026
<b>जोड़</b>				<b>0.7410</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बहादुरगढ़				
ग्राम का नाम : जसौर खेड़ी				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्यामुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3// 15/2/1 min	नहरी	निजी	0.0026
2	3// 16/1/1 min	नहरी	निजी	0.0152
3	3// 16/1/2 min	नहरी	निजी	0.0102
4	3// 25/1 min	नहरी	निजी	0.0102
5	15// 4/1/1/2 min	नहरी	निजी	0.0026
6	15// 4/1/2/2 min	गै, मु नहर	निजी	0.0051
7	15// 7/1 min	गै, मु पानी सम्बन्धी	सरकारी	0.0076
8	15// 7/2 min	नहरी	निजी	0.0152
9	15// 13/2 min	नहरी	निजी	0.0228
10	15// 14/1/1 min	नहरी	निजी	0.0026
11	15// 18 min	नहरी	निजी	0.1063
12	15// 22/2 min	नहरी	निजी	0.0203
13	15// 23 min	नहरी	निजी	0.1569
14	34// 25/2 min	चाही	निजी	0.0355

15	35// 1/1/2 min	नहरी	निजी	0.0051
16	35// 2/1/2 min	नहरी	निजी	0.1493
17	35// 2/2 min	गै मु	निजी	0.0102
18	35// 3 min	नहरी	निजी	0.0203
19	35// 9 min	नहरी	निजी	0.1872
20	35// 10/1/1/1 min	नहरी	निजी	0.0026
21	35// 11/1/2 min	नहरी	निजी	0.0178
22	35// 11/2/2 min	नहरी	निजी	0.0026
23	35// 12/1 min	नहरी	निजी	0.0633
24	35// 12/2 min	नहरी	निजी	0.0026
25	35// 19/1 min	नहरी	निजी	0.0051
26	35// 19/2 min	नहरी	निजी	0.0152
27	35// 20/1/2 min	नहरी	निजी	0.0051
28	35// 20/2/1 min	नहरी	निजी	0.2277
29	35// 21/1 min	नहरी	निजी	0.1063
30	35// 21/2 min	नहरी	निजी	0.0051
31	46// 1 min	चाही	निजी	0.0279
32	47// 5/2 min	चाही	निजी	0.1847
33	47// 6 min	चाही	निजी	0.2100
34	47// 7/1 min	नहरी	निजी	0.0076
35	47// 14/2 min	नहरी	निजी	0.1366
36	47// 15/1 min	नहरी	निजी	0.0810
37	47// 16 min	नहरी	निजी	0.0582
38	47// 17/1 min	नहरी	निजी	0.1518
39	47// 23/2 min	गै, मु राजवाह	निजी	0.0633
40	47// 24 min	नहरी	निजी	0.1543
41	67// 3/1/2 min	गै, मु राजवाह	निजी	0.1240
42	67// 3/2 min	नहरी	निजी	0.0734
43	67// 4 min	नहरी	निजी	0.0152
44	67// 8 min	नहरी	निजी	0.1923
45	67// 9/1 min	भूड	निजी	0.0076
46	67// 12/2 min	बरानी	निजी	0.1290
47	67// 13 min	बरानी	निजी	0.0608
48	67// 19 min	नहरी	निजी	0.1973
49	67// 21/2 min	गै, मु राजवाह	निजी	0.0532
50	67// 22 min	नहरी	निजी	0.1341
51	80// 1/2 min	गै, मु राजवाह	निजी	0.1720
52	80// 2 min	नहरी	निजी	0.0076
53	80// 10 min	नहरी	निजी	0.1113
54	81// 5 min	नहरी	निजी	0.0076
55	81// 6/1 min	नहरी	निजी	0.0076
56	81// 15/2 min	भूड	निजी	0.0456
57	81// 16/1/1 min	भूड	निजी	0.0127

58	81// 16/2/2 min	भूड	निजी	0.0456
59	81// 24/2 min	भूड	निजी	0.0178
60	81// 25 min	भूड	निजी	0.0127
61	132 min	गै, मु राजवाह	सरकारी	0.0026
62	138 min	गै, मु नहर / दहाना	सरकारी / निजी	0.0329
63	154 min	गै, मु	सरकारी / निजी	0.0253
64	256 min	गै मु रास्ता	सरकारी / निजी	0.0102
<b>जोड़</b>				<b>3.8124</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बहादुरगढ़				
ग्राम का नाम : खेड़ी जसौर				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	71// 9/1 min	नहरी	निजी	0.0582
2	71// 9/2 min	नहरी	निजी	0.0051
3	71// 12 min	नहरी	निजी	0.1240
4	71// 20 min	नहरी	निजी	0.0279
5	71// 21/1 min	नहरी	निजी	0.1164
5	71// 21/2 min	नहरी	निजी	0.0026
6	75// 1 min	नहरी	निजी	0.0683
7	76// 5/2 min	नहरी	निजी	0.0127
8	76// 6 min	नहरी	निजी	0.0936
9	76// 15/1 min	नहरी	निजी	0.0026
10	76// 15/2 min	नहरी	निजी	0.0936
11	76// 16/3 min	नहरी	निजी	0.0102
12	76// 16/4 min	नहरी	निजी	0.0127
13	76// 17 min	नहरी	निजी	0.0658
14	76// 24 min	नहरी	निजी	0.0860
15	100// 3/2 min	नहरी	निजी	0.0203
16	100// 4 min	नहरी	निजी	0.0608
17	100// 8/1 min	नहरी	निजी	0.0810
18	100// 13/1 min	नहरी	निजी	0.0456
19	100// 13/2 min	नहरी	निजी	0.0355
20	100// 18 min	नहरी	निजी	0.0203
21	100// 19 min	नहरी	निजी	0.0633
22	100// 22 min	नहरी	निजी	0.0810
23	109// 1/1 min	नहरी	निजी	0.0253
24	109// 2 min	नहरी	निजी	0.0608
25	109// 10 min	नहरी	निजी	0.0860
26	109// 11 min	बरानी	निजी	0.0532
27	143 min	गै, मु सडक	निजी	0.0051
28	144 min	गै, मु दहाना	निजी	0.0127

29	153 min	गै, मु रास्ता	निजी	0.0152
30	177 min	गै, मु रास्ता	निजी	0.0051
31	257 min	गै, मु रास्ता	निजी	0.0051
<b>जोड़</b>				<b>1.4560</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बहादुरगढ़				
ग्राम का नाम : निलोठी				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	75// 18/1/1 min	नहरी	निजी	0.0026
2	75// 18/1/2 min	नहरी	निजी	0.0228
3	75// 18/2/1 min	नहरी	निजी	0.0253
4	75// 22/1/2 min	नहरी	निजी	0.0025
5	87// 15/2 min	नहरी	निजी	0.0102
6	87// 16/1 min	नहरी	निजी	0.0051
7	87// 24/1/2 min	नहरी	निजी	0.0026
8	87// 24/2/2 min	नहरी	निजी	0.0051
9	87// 25 min	नहरी	निजी	0.0178
10	88// 10/2/2 min	बरानी	निजी	0.0203
11	88// 11/1 min	बरानी	निजी	0.2049
12	98// 4/4 min	नहरी	निजी	0.0253
13	98// 7 min	नहरी	निजी	0.0203
14	98// 13/2 min	नहरी	निजी	0.0228
15	98// 14/1 min	नहरी	निजी	0.0051
16	98// 14/2 min	नहरी	निजी	0.0026
17	98// 18/1 min	नहरी	निजी	0.0329
18	98// 22/1 min	नहरी	निजी	0.0051
19	98// 23/1 min	नहरी	निजी	0.0304
20	102// 2/1/2 min	नहरी	निजी	0.0051
21	102// 2/2/2 min	नहरी	निजी	0.0304
22	291 min	गै, मु रास्ता	निजी	0.0026
23	342 min	गै, मु रास्ता	निजी	0.0026
<b>जोड़</b>				<b>0.5044</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बहादुरगढ़				
ग्राम का नाम : जाखौदा				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	11// 11 min	नहरी	निजी	0.0152
2	11// min	नहरी	निजी	0.0178
3	12// 16/2 min	नहरी	निजी	0.0026
4	18// 25/1/1 min	गै, मु सडक	सरकारी	0.0127

5	18// 25/1/2/1 min	गै, मु सडक	सरकारी	0.0026
6	18// 25/1/2/2 min	गै, मु सडक	सरकारी	0.0026
7	19// 18 min	नहरी	निजी	0.0026
8	19// 20/2 min	नहरी	निजी	0.0026
9	19// 21/3/2 min	नहरी	निजी	0.0076
10	36// 1/1 min	नहरी	निजी	0.0026
11	36// 1/2/1 min	नहरी	निजी	0.0051
12	36// 1/2/2 min	नहरी	निजी	0.0026
13	37// 4/1 min	नहरी	निजी	0.0076
14	37// 5/1/2 min	चाही	निजी	0.0051
15	37// 5/2 min	नहरी	निजी	0.0026
16	37// 6/1 min	नहरी	निजी	0.0051
17	37// 7/1 min	नहरी	निजी	0.0076
18	37// 7/2 min	नहरी	निजी	0.0102
19	37// 8 min	नहरी	निजी	0.0076
20	37// 13 min	नहरी	निजी	0.0051
21	37// 14/1 min	नहरी	निजी	0.0051
22	84 min	गै, मु नहर	निजी	0.0127
23	90 min	गै, मु सडक	निजी	0.0026
24	91 min	गै, मु सडक /दहाना	निजी	0.0051
25	117 min	गै, मु सडक	निजी	0.0152
<b>जोड़</b>				<b>0.1682</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बहादुरगढ़				
ग्राम का नाम : माण्डोटी				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1164/2 min	नहरी	निजी	0.0543
2	1165 min	नहरी	निजी	0.0048
3	1171/1 min	नहरी	निजी	0.0993
4	1172 min	नहरी	निजी	0.0233
5	1173/2 min	नहरी	निजी	0.0546
6	1178/2 min	नहरी	निजी	0.0166
7	1179/1 min	नहरी	निजी	0.0273
8	1182/2 min	नहरी	निजी	0.0133
9	1199/1 min	नहरी	निजी	0.0079
10	1200/2 min	नहरी	निजी	0.0172
11	1201/2 min	नहरी	निजी	0.0168
12	1203 min	नहरी	निजी	0.0210
13	1206 min	नहरी	निजी	0.0435
14	1314 min	गैर मुमकिन सडक खास	सरकारी	0.0148
15	1317/1 min	नहरी	निजी	0.0910

16	1320/1/2 min	नहरी	निजी	0.0944
17	1321/3/1 min	नहरी	निजी	0.0724
18	1321/2 min	गैर मुमकिन नहर	सरकारी	0.0154
19	1325/1 min	गैर मुमकिन नहर	सरकारी	0.0399
20	1325/2 min	गैर मुमकिन नहर	सरकारी	0.0202
21	1326 min	गैर मुमकिन नहर	सरकारी	0.0207
22	1400 min	नहरी	निजी	0.5397
23	1494 min	नहरी	निजी	0.0206
24	1496 min	नहरी	निजी	0.1263
25	1497 min	नहरी	निजी	0.2382
26	1498 min	नहरी	निजी	0.0180
27	1837 min	नहरी	निजी	0.2481
28	1838 min	नहरी	निजी	0.0272
29	5347/1839 min	गैर मुमकिन नहर	सरकारी	0.0509
30	5348/1839 min	नहरी	निजी	0.0956
31	5349/1839 min	नहरी	निजी	0.1567
32	1840 min	नहरी	निजी	0.0527
33	1842 min	नहरी	निजी	0.1323
34	1843 min	नहरी	निजी	0.1091
35	1845 min	नहरी	निजी	0.0181
36	1851/2 min	नहरी	निजी	0.0625
37	1852 min	नहरी	निजी	0.1104
38	1853 min	नहरी	निजी	0.1982
39	1859 min	नहरी	निजी	0.0158
40	1866 min	नहरी	निजी	0.0366
41	1867 min	नहरी	निजी	0.0909
42	1868 min	नहरी	निजी	0.1374
43	1869 min	नहरी	निजी	0.1672
44	1874 min	नहरी	निजी	0.0379
45	1876 min	नहरी	निजी	0.3114
46	5369/1878 min	बरानी	निजी	0.0426
47	1879 min	नहरी	निजी	0.1952
48	2166 min	नहरी	निजी	0.0245
49	2169 min	नहरी	निजी	0.1134
50	2276 min	नहरी	निजी	0.0551
51	2281 min	बरानी	निजी	0.0427
52	2283 min	बरानी	निजी	0.0251
53	2284 min	बरानी	निजी	0.0380
54	2285 min	बरानी	निजी	0.1134
55	2286 min	बरानी	निजी	0.0718
56	2287 min	नहरी	निजी	0.1320
57	2288 min	नहरी	निजी	0.0839
58	2289 min	नहरी	निजी	0.0736
59	2290 min	नहरी	निजी	0.0690

60	2292 min	नहरी	निजी	0.0072
61	2303 min	नहरी	निजी	0.1860
62	2305 min	नहरी	निजी	0.0513
63	2306 min	नहरी	निजी	0.0503
64	2309 min	नहरी	निजी	0.0328
65	2373 min	नहरी	निजी	0.0563
66	2374/2 min	नहरी	निजी	0.0233
67	2375 min	नहरी	निजी	0.0404
68	2380/1 min	नहरी	निजी	0.0594
69	2380/2 min	नहरी	निजी	0.0919
70	2384 min	नहरी	निजी	0.1483
71	2386 min	नहरी	निजी	0.0821
72	2391/2 min	नहरी	निजी	0.0728
73	2394 min	नहरी	निजी	0.0315
74	2447/2 min	नहरी	निजी	0.0655
75	2448/2 min	नहरी	निजी	0.0141
76	2450/2 min	नहरी	निजी	0.1736
77	2451 min	नहरी	निजी	0.2052
78	2452 min	नहरी	निजी	0.1132
79	2453 min	नहरी	निजी	0.0645
80	2511 min	गैर मुमकिन सडक	सरकारी	0.0236
81	2534 min	नहरी	निजी	0.1552
82	5169/2537 min	गैर मुमकिन सडक	सरकारी	0.0173
83	5170/2537 min	गैर मुमकिन नहर	सरकारी	0.0341
84	5171/2537 min	नहरी	निजी	0.0895
85	2554 min	गैर मुमकिन सडक / नहर	सरकारी	0.0667
86	2579/2 min	नहरी	निजी	0.0224
87	2580/2 min	नहरी	निजी	0.1030
88	2581/2 min	नहरी	निजी	0.0671
89	2582/2 min	नहरी	निजी	0.0176
90	2583 min	नहरी	निजी	0.0509
<b>जोड़</b>				<b>7.0679</b>
तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : बाहदुरगढ़				
ग्राम का नाम : आसौदा टोड़रान				
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/किला नम्बर	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	150/2 min	गैर मुमकिन जोहड	निजी	0.0490
2	153 min	नहरी	निजी	0.0307
3	185/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0061
4	223 min	चाही	निजी	0.0202
5	225/1 min	चाही	निजी	0.0813



6	226/1/2 min	चाही	निजी	0.1035
7	227 min	चाही	निजी	0.2519
8	228/3/2 min	चाही	निजी	0.0368
9	276 min	बरानी	निजी	0.0634
10	277/2 min	चाही	निजी	0.0939
11	278/2 min	चाही	निजी	0.0728
12	286 min	नहरी	निजी	0.0048
13	287 min	नहरी	निजी	0.0424
14	288/1 min	नहरी	निजी	0.0645
15	363/2/2 min	गैर मुमकिन रास्ता	सरकारी	0.0390
16	367 min	गैर मुमकिन रेलवे	सरकारी	0.1495
17	3646/430/2 min	गैर मुमकिन सडक	सरकारी	0.0283
18	432/1 min	नहरी	निजी	0.0647
19	433/2 min	नहरी	निजी	0.2556
20	447 min	नहरी	निजी	0.1119
21	448 min	नहरी	निजी	0.1307
22	449/2 min	नहरी	निजी	0.3067
23	450 min	नहरी	निजी	0.1366
24	595 min	ब कदीम	निजी	0.0735
25	596/1/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0626
26	3472/604/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0698
27	605 min	बरानी	निजी	0.0810
28	608/1 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0616
29	3450/609/2 min	गैर मुमकिन	निजी	0.0718
30	3363/630/2 min	गैर मुमकिन सडक	सरकारी	0.1345
31	1027 min	नहरी	निजी	0.0540
32	2095/1/1 min	नहरी	निजी	0.0544
33	2433 min	नहरी	निजी	0.0051
34	2560/1/2 min	गैर मुमकिन सडक	सरकारी	0.0051
35	3444/274-275/1 min	नहरी	निजी	0.0405
जोड़				<b>2.8582</b>
कुल जोड़				<b>31.3663</b>

[फा. सं.- 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
(Northern Railway)  
(CONSTRUCTION ORGANIZATION)  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th September, 2023

**S.O. 4127(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section of 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) Amended through Railways (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land to be acquired, with or without

structure, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution, maintenance, management & operation in connection with the Special Railway Project, namely, “Haryana Orbital Rail Corridor Project from Palwal to Sonipat via Sohna, Manesar and Kharkhoda” New Broad Gauge Double Rail Line on the stretch of land from K.M. 63.350 to K.M. 99.185 in the District of Jhajjar in the state of Haryana hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition & use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely the Sub Divisional Officer(Civil)-Cum-Competent Authority(LA), Bahadurgarh writing & shall set-out the grounds thereof & the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections & after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final. The land plans & other details of the land covered under this notification are available & can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, “Haryana Orbital Rail Corridor Project from Palwal to Sonipat via Sohna, Manesar and Kharkhoda” New Broad-Gauge Double Rail Line on the stretch of land from K.M. 63.350 to K.M. 9+9.185 in the District of **Jhajjar** in the state of Haryana.

<b>Name of the District: JHAJJAR</b>				
<b>Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BADLI</b>				
<b>Name of Village: MUNDAKHERA</b>				
<b>Serial Number</b>	<b>Survey Number Rect. No./Field No.</b>	<b>Nature of Land</b>	<b>Type of Land</b>	<b>Land Area in Hectares</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	9// 22 min	Chahi	Private	0.0076
2	11// 2/2 min	Chahi	Private	0.0076
3	11// 8 min	Chahi	Private	0.0051
4	11// 13/1/2 min	Chahi	Private	0.0026
5	11// 18/1/1 min	Chahi	Private	0.0026
6	21// 21 min	Chahi	Private	0.0026
7	22// 3/2 min	Chahi	Private	0.0026
8	22// 15 min	Chahi	Private	0.0051
9	22// 17/1 min	Chahi	Private	0.0026
10	22// 25/2 min	Chahi	Private	0.0051
11	26// 11 min	Barani	Private	0.2023
12	26// 19/1 min	Barani	Private	0.0051
13	26// 22/2 min	Barani	Private	0.0026
14	34// 2/2/1 min	Chahi	Private	0.0026

15	34// 2/2/2 min	Chahi	Private	0.0051
16	34// 3/2 min	Chahi	Private	0.0076
17	34// 8/1 min	Chahi	Private	0.0102
18	34// 13/2 min	Chahi	Private	0.0051
19	34// 17/2 min	Chahi	Private	0.0026
20	34// 18/1 min	Chahi	Private	0.0076
21	34// 24 min	Chahi	Private	0.0051
22	39// 3/1/2 min	Barani	Private	0.0026
23	39// 4/2 min	Barani	Private	0.0102
24	39// 7/1 min	Barani	Private	0.0051
25	40// 21/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0026
26	45// 1/2 min	Barani	Private	0.0051
27	45// 10/2 min	Chahi	Private	0.0051
28	45// 11/2 min	Chahi	Private	0.0026
29	45// 12 min	Barani	Private	0.0026
30	45// 19 min	Barani	Private	0.0051
31	45// 22/2 min	Barani	Private	0.0102
32	53// 2/2/1 min	Barani	Private	0.0102
33	53// 2/2/2 min	Gair Mumkin Nala	Government	0.0026
34	53// 3/1 min	Barani	Private	0.0076
35	53// 3/2 min	Barani	Private	0.0026
36	53// 8/1/1 min	Gair Mumkin Nala	Government	0.0051
37	53// 8/1/2 min	Barani	Private	0.0026
38	53// 8/2 min	Barani	Private	0.0203
39	53// 13/1/2 min	Barani	Private	0.0051
40	53// 13/2 min	Barani	Private	0.0026
41	53// 13/3 min	Chahi	Private	0.0152
42	53// 17 min	Chahi	Private	0.0203
43	53// 18/1 min	Chahi	Private	0.0102
44	53// 23/2 min	Barani	Private	0.0076
45	53// 24 min	Barani	Private	0.0253
46	56// 4/2 min	Chahi	Private	0.0102
47	56// 6/1 min	Barani	Private	0.0051

48	56// 7/1/1 min	Barani	Private	0.0026
49	56// 15/1 min	Barani	Private	0.0026
50	56// 15/2 min	Barani	Private	0.0076
51	56// 16/1/1 min	Barani	Private	0.0051
52	56// 16/2/1 min	Barani	Private	0.0026
53	56// 25/1/2 min	Barani	Private	0.0026
54	56// 25/2/2 min	Barani	Private	0.0026
55	81 min	Gair Mumkin Rasta	Government	0.0026
56	84 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0076
57	488 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
58	493 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0026
59	500 min		Private	0.0026
<b>Sub Total</b>				<b>0.5494</b>

**Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BADLI**

**Name of Village: ISMILPUR**

Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2// 4 min	Chahi	Private	0.0076
2	2// 6/2 min	Barani	Private	0.0102
3	2// 7/1 min	Banjar Kadeem	Private	0.0076
4	2// 15 min	Barani	Private	0.0253
5	2// 16/1 min	Barani	Private	0.0279
6	2// 25/2 min	Barani	Private	0.0102
7	4// 1/2 min	Barani	Private	0.0051
8	4// 10/2 min	Barani	Private	0.0051
9	56 min	Gair Mumkin Rasta	Government	0.0051
10	297 min	Gair Mumkin Rasta	Government	0.0025
<b>Sub Total</b>				<b>0.1066</b>

**Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BADLI**

**Name of Village: DEWARKHANA**

Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	32// 8 min	Chahi	Private	0.0076

2	32// 13 min	Chahi	Private	0.0506
3	32// 14 min	Chahi	Private	0.0102
4	32// 17/1 min	Chahi	Private	0.0152
5	32// 17/2 min	Gair Mumkin	Government	0.0026
6	32// 26 min	Gair Mumkin	Private	0.0026
7	33// 5/1 min	Chahi	Private	0.0076
8	59 min	Gair Mumkin Drain	Government	0.0203
<b>Sub Total</b>				<b>0.1167</b>

**Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BADLI**

**Name of Village: LAGARPUR**

Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	20// 8/2/1 min	Nahari	Private	0.0026
2	20// 13/2/2 min	Chahi	Private	0.0026
3	29// 25/2 min	Nahari	Private	0.0102
4	30// 5/2 min	Nahari	Private	0.0026
5	30// 15/2 min	Nahari	Private	0.0026
6	31// 1 min	Nahari	Private	0.0026
7	31// 10 min	Chahi	Private	0.0102
8	31// 11/2 min	Chahi	Private	0.0102
9	31// 20/1 min	Chahi	Private	0.0051
10	31// 21/2 min	Chahi	Private	0.0051
11	31// 22 min	Chahi	Private	0.0076
12	34// 2 min	Chahi	Private	0.0051
13	34// 9 min	Chahi	Private	0.0102
14	34// 18 min	Chahi	Private	0.0127
15	34// 23/1 min	Chahi	Private	0.0152
16	34// 23/2 min	Chahi	Private	0.0026
17	37// 3 min	Chahi	Private	0.0152
18	121 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
19	136 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0026
20	154 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0026
21	155 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0026
<b>Sub Total</b>				<b>0.1353</b>

**Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BADLI**

**Name of Village: DARYAPUR**

Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	3// 17/2 min	Chahi	Private	0.0506
2	3// 18 min	Nahari	Private	0.0076
3	3// 24/1/1 min	Chahi	Private	0.0203
4	3// 24/1/2 min	Nahari	Private	0.0936
5	13// 3/2 min	Nahari	Private	0.0127
6	13// 4/1 min	Nahari	Private	0.0987
7	13// 7/2 min	Nahari	Private	0.1063
8	13// 8/1 min	Nahari	Private	0.0405
9	13// 13/2 min	Nahari	Private	0.0608
10	13// 14/1 min	Nahari	Private	0.0911
11	13// 17/2 min	Nahari	Private	0.0759
12	13// 18/1 min	Nahari	Private	0.0860
13	13// 23/2 min	Chahi	Private	0.1113
14	13// 24/1 min	Chahi	Private	0.0608
15	18// 3/2/1 min	Chahi	Private	0.0608
16	18// 3/2/2 min	Chahi	Private	0.0734
17	18// 4/1 min	Chahi	Private	0.0405
18	18// 4/2/1 min	Chahi	Private	0.0152
19	18// 7/2 min	Chahi	Private	0.0253
20	18// 8 min	Chahi	Private	0.1569
21	18// 13/2 min	Chahi	Private	0.1670
22	18// 14/1 min	Chahi	Private	0.0127
23	18// 17/2 min	Chahi	Private	0.0026
24	18// 18/2 min	Chahi	Private	0.1999
25	18// 22/2/2 min	Chahi	Private	0.0026
26	18// 23/1 min	Chahi	Private	0.1999
27	29// 3/1/1 min	Chahi	Private	0.0430
28	29// 3/1/2 min	Chahi	Private	0.0481
29	29// 3/1/3 min	Chahi	Private	0.0456
30	29// 3/1/4 min	Chahi	Private	0.0355
31	29// 3/1/5 min	Chahi	Private	0.0430
32	29// 8/2 min	Chahi	Private	0.2327
33	29// 13/1/1 min	Chahi	Private	0.0152
34	29// 13/2/2/1/2 min	Chahi	Private	0.2327
35	29// 18/1/1/2 min	Chahi	Private	0.0633
36	29// 18/1/1/2/2 min	Chahi	Private	0.0000
37	29// 18/1/2/2 min	Chahi	Private	0.0051
38	29// 18/2/1 min	Chahi	Private	0.0456
39	29// 18/2/2/1/1 min	Chahi	Private	0.0481

40	29// 18/2/2/1/1/2 min	Chahi	Private	0.0051
41	29// 18/2/2/2 min	Chahi	Private	0.0127
42	29// 18/2/2/1/2/1 min	Chahi	Private	0.0709
43	29// 18/2/2/1/2/2 min	Chahi	Private	0.0152
44	29// 18/3/1/2/1 min	Chahi	Private	0.0203
45	29// 18/3/2 min	Chahi	Private	0.0051
46	29// 19/2/1/2 min	Chahi	Private	0.0051
47	29// 22/2/1 min	Chahi	Private	0.0026
48	29// 23/1/1 min	Chahi	Private	0.0178
49	29// 23/1/2 min	Chahi	Private	0.0026
50	29// 23/3/1 min	Chahi	Private	0.1341
51	29// 27/1/1 min	Chahi	Private	0.0127
52	29// 27/1/2 min	Chahi	Private	0.0026
53	29// 27/2 min	Chahi	Private	0.0203
54	31// 3/1/1/1/1 min	Chahi	Private	0.0658
55	31// 8/2/2 min	Chahi	Private	0.0658
56	31// 12/2/2 min	Chahi	Private	0.0026
57	31// 13/1 min	Chahi	Private	0.0608
58	31// 18/2 min	Nahari	Private	0.0557
59	31// 23/1 min	Nahari	Private	0.0355
60	44// 3/1/1 min	Nahari	Private	0.0076
61	44// 3/1/2 min	Chahi	Private	0.0304
62	44// 8/1/2 min	Chahi	Private	0.0127
63	44// 8/2/2 min	Chahi	Private	0.0304
64	44// 13/1 min	Chahi	Private	0.0405
65	44// 18/1 min	Chahi	Private	0.0152
66	44// 18/2 min	Chahi	Private	0.0203
67	44// 23/1 min	Chahi	Private	0.0051
68	44// 23/2 min	Chahi	Private	0.0253
69	44// 24/1 min	Chahi	Private	0.0102
70	44// 24/2 min	Chahi	Private	0.0026
71	45// 4/1/1 min	Chahi	Private	0.0026
72	45// 4/1/2 min	Chahi	Private	0.0026
73	45// 4/2/1 min	Chahi	Private	0.0860
74	45// 4/2/2 min	Chahi	Private	0.0228
75	45// 7/1 min	Chahi	Private	0.0304
76	45// 14/2 min	Chahi	Private	0.0304
77	45// 17/1 min	Chahi	Private	0.0304

78	45// 25/1 min	Chahi	Private	0.0152
79	45// 25/2 min	Chahi	Private	0.0127
80	58// 5/1/1 min	Chahi	Private	0.0051
81	78 min	Gair Mumkin Rasta	Private / Government	0.0127
82	108 min	Gair Mumkin Dahana	Private / Government	0.0076
83	112 min	Gair Mumkin Dahana	Private / Government	0.0026
84	401 min	Gair Mumkin Rasta	Private / Government	0.0102
85	402 min	Gair Mumkin Rasta	Private / Government	0.0127
86	445 min	Gair Mumkin Rasta	Private / Government	0.0051
87	448 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
88	453 min	Gair Mumkin Rasta	Private / Government	0.0178
<b>Sub Total</b>				<b>3.8565</b>
<b>Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BADLI</b>				
<b>Name of Village: BADLI</b>				
Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	8// 11 min	Nahari	Private	0.0051
2	8// 20 min	Nahari	Private	0.0076
3	8// 21 min	Nahari	Private	0.0355
4	9// 5/2 min	Nahari	Private	0.0253
5	9// 6/1 min	Nahari	Private	0.0253
6	9// 15/1/2 min	Nahari	Private	0.0102
7	9// 15/2/2 min	Nahari	Private	0.0203
8	9// 16/1 min	Nahari	Private	0.0228
9	25// 1 min	Nahari	Private	0.0380
10	25// 2 min	Nahari	Private	0.0026
11	25// 9 min	Nahari	Private	0.0051
12	25// 10 min	Nahari	Private	0.0253
13	25// 11/2 min	Nahari	Private	0.0355
14	25// 12 min	Nahari	Private	0.0102
15	25// 19/1 min	Nahari	Private	0.0127
16	25// 19/2 min	Nahari	Private	0.0380
17	25// 20/1 min	Nahari	Private	0.0203
18	25// 22/1 min	Nahari	Private	0.0152
19	25// 22/2 min	Nahari	Private	0.0380
20	25// 22/3 min	Chahi	Private	0.0102
21	25// 23/1 min	Chahi	Private	0.0127



22	29// 2 min	Nahari	Private	0.0658
23	29// 3/1 min	Chahi	Private	0.0127
24	29// 3/2 min	Nahari	Private	0.0178
25	29// 8/1 min	Nahari	Private	0.0203
26	29// 9 min	Nahari	Private	0.0658
27	29// 12/2 min	Nahari	Private	0.0355
28	29// 13/1 min	Nahari	Private	0.0178
29	29// 13/2 min	Banjar Kadeem	Private	0.0355
30	29// 14 min	Banjar Kadeem	Private	0.0026
31	29// 17 min	Nahari	Private	0.0026
32	29// 18 min	Nahari	Private	0.0279
33	29// 19 min	Nahari	Private	0.0026
34	29// 23/1 min	Gair Mumkin Plot	Private	0.0127
35	29// 23/2 min	Gair Mumkin Plot	Private	0.0152
36	29// 24 min	Chahi	Private	0.0304
37	46// 4/2 min	Nahari	Private	0.0102
38	46// 16 min	Nahari	Private	0.1215
39	46// 25 min	Nahari	Private	0.0253
40	47// 20 min	Nahari	Private	0.0456
41	47// 21 min	Nahari	Private	0.1366
42	53// 1 min	Nahari	Private	0.1619
43	53// 10 min	Nahari	Private	0.1670
44	53// 11 min	Chahi	Private	0.1164
45	53// 12 min	Chahi	Private	0.0456
46	53// 19 min	Nahari	Private	0.1392
47	53// 20 min	Nahari	Private	0.0203
48	53// 22/1 min	Nahari	Private	0.1113
49	53// 22/2 min	Nahari	Private	0.0506
50	54// 16 min	Nahari	Private	0.0026
51	54// 25/2 min	Nahari	Private	0.0102
52	77// 1/1 min	Nahari	Private	0.0026
53	77// 2/1 min	Nahari	Private	0.0051
54	77// 2/2 min	Nahari	Private	0.1569
55	77// 8 min	Nahari	Private	0.0506
56	77// 9/1 min	Banjar Kadeem	Private	0.1113
57	77// 12/2 min	Nahari	Private	0.0026
58	77// 12/3 min	Nahari	Private	0.0127
59	77// 13 min	Nahari	Private	0.1417
60	77// 18 min	Nahari	Private	0.1569
61	77// 19 min	Nahari	Private	0.0127
62	77// 23 min	Nahari	Private	0.1518
63	87// 3 min	Nahari	Private	0.1012
64	87// 4 min	Nahari	Private	0.0557
65	87// 7 min	Nahari	Private	0.1493
66	87// 8 min	Nahari	Private	0.0127

67	87// 14 min	Nahari	Private	0.1670
68	87// 16 min	Chahi	Private	0.0026
69	87// 17 min	Chahi	Private	0.1619
70	87// 19/1/2 min	Chahi	Private	0.0026
71	87// 24 min	Chahi	Private	0.0911
72	87// 25 min	Chahi	Private	0.0658
73	114// 14 min	Nahari	Private	0.0506
74	114// 15 min	Nahari	Private	0.3592
75	114// 16 min	Chahi	Private	0.0456
76	114// 17/1 min	Nahari	Private	0.0481
77	114// 17/2 min	Nahari	Private	0.0026
78	114// 24/1 min	Nahari	Private	0.0304
79	114// 24/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0051
80	114// 25/1/1 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0026
81	114// 25/1/2 min	Chahi	Private	0.0329
82	114// 25/1/2/2 min	Chahi	Private	0.0102
83	114// 25/2/2 min	Chahi	Private	0.0051
84	125// 1 min	Chahi	Private	0.0076
85	125// 10 min	Chahi	Private	0.0405
86	125// 11 min	Chahi	Private	0.0405
87	125// 20 min	Chahi	Private	0.0380
88	125// 21 min	Banjar Kadeem	Private	0.0683
89	125// 22 min	Nahari	Private	0.0076
90	126// 4 min	Nahari	Private	0.0127
91	126// 5/2 min	Nahari	Private	0.0608
92	126// 6 min	Nahari	Private	0.0355
93	126// 15/2 min	Nahari	Private	0.0355
94	126// 16/1 min	Nahari	Private	0.0279
95	126// 25/2 min	Barani	Private	0.0051
96	148// 1 min	Nahari	Private	0.0405
97	148// 2 min	Chahi	Private	0.0405
98	148// 9 min	Chahi	Private	0.0355
99	148// 10/1 min	Chahi	Private	0.0456
100	148// 11/2 min	Chahi	Private	0.0329
101	148// 12 min	Chahi	Private	0.0279
102	148// 18 min	Nahari	Private	0.0051
103	148// 19 min	Nahari	Private	0.0582
104	148// 20 min	Nahari	Private	0.0026
105	148// 22 min	Nahari	Private	0.0405
106	148// 23 min	Chahi	Private	0.0355
107	157// 2/1 min	Chahi	Private	0.0430
108	157// 2/2 min	Chahi	Private	0.0076
109	157// 3 min	Chahi	Private	0.0304
110	157// 8 min	Chahi	Private	0.0304
111	157// 9/1 min	Chahi	Private	0.0430
112	157// 13 min	Chahi	Private	0.0430
113	157// 14 min	Chahi	Private	0.0026

114	157// 17 min	Chahi	Private	0.0102
115	157// 18 min	Chahi	Private	0.0430
116	157// 23 min	Chahi	Private	0.0506
117	157// 24 min	Chahi	Private	0.0102
118	175// 3/2/1 min	Chahi	Private	0.0102
119	175// 3/2/2 min	Chahi	Private	0.0380
120	175// 4/1/1 min	Chahi	Private	0.0026
121	175// 4/1/2 min	Chahi	Private	0.0152
122	175// 7 min	Chahi	Private	0.0203
123	175// 8/1 min	Chahi	Private	0.0658
124	175// 13/2 min	Chahi	Private	0.0506
125	175// 14 min	Chahi	Private	0.0203
126	175// 17 min	Chahi	Private	0.0304
127	175// 18/1 min	Chahi	Private	0.0506
128	175// 23/2/1 min	Chahi	Private	0.0253
129	175// 23/2/2 min	Chahi	Private	0.0178
130	175// 24 min	Chahi	Private	0.0380
131	186// 3 min	Chahi	Private	0.0026
132	186// 4/1/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0026
133	186// 4/2/2/1 min	Chahi	Private	0.0304
134	186// 4/2/2/2 min	Chahi	Private	0.0102
135	186// 7/1/1 min	Chahi	Private	0.0253
136	186// 7/1/2 min	Chahi	Private	0.0203
137	186// 8 min	Chahi	Private	0.0456
138	186// 13 min	Gair Mumkin Nahar	Government	0.1113
139	186// 14/1 min	Gair Mumkin Nahar	Government	0.0127
140	186// 14/2 min	Gair Mumkin Nahar	Government	0.0102
141	186// 18/2 min	Gair Mumkin Nahar	Government	0.0608
142	186// 23/1/1 min	Gair Mumkin Nahar	Government	0.0456
143	186// 23/2/1 min	Gair Mumkin Nahar	Government	0.0152
144	186// 24/2 min	Chahi	Private	0.0329
145	212// 3/2/1 min	Chahi	Private	0.0405
146	212// 4/1 min	Chahi	Private	0.0203
147	212// 4/2 min	Chahi	Private	0.0279
148	212// 7/2/1 min	Chahi	Private	0.0203
149	212// 7/2/2 min	Chahi	Private	0.0152
150	212// 8 min	Gair Mumkin Road	Government	0.0279
151	212// 13 min	Barani	Private	0.0102
152	212// 14/1/1 min	Barani	Private	0.0101
153	212// 14/1/2 min	Barani	Private	0.0532
154	212// 17/2 min	Barani	Private	0.0683
155	212// 26 min	Barani	Private	0.0026
156	212// 27 min	Chahi / Gair Mumkin	Private / Government	0.0152
157	264// 9/1/1 min	Chahi	Private	0.0026
158	264// 18/1 min	Chahi	Private	0.1467
159	264// 23/2 min	Chahi	Private	0.0051
160	284// 3/2/2 min	Chahi	Private	0.0026

161	286// 4/2/1 min	Chahi	Private	0.0076
162	286// 6 min	Chahi	Private	0.0051
163	286// 15/2/1 min	Chahi	Private	0.0810
164	286// 25/2/1 min	Chahi	Private	0.0051
165	309// 19/1 min	Chahi	Private	0.0051
166	28 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0127
167	621 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0380
168	622 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0380
169	623 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.5261
170	625 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0203
171	628 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0329
172	650 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0127
173	653 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0152
174	2068 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0026
175	2069 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0026
176	2087 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
177	2088 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0076
178	2089 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0026
179	2090 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0026
180	2104 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0026
181	2126 min		Private	0.0102

**Sub Total****7.3266****Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BADLI****Name of Village: MAJRI**

Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	4// 10 min	Chahi	Private	0.0203
2	4// 11 min	Chahi	Private	0.0253
3	4// 20 min	Chahi	Private	0.0253
3	4// 21 min	Chahi	Private	0.0102
4	5// 6/2/1 min	Chahi	Private	0.0026
5	9// 20 min	Chahi	Private	0.0051

**Sub Total****0.0888****Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BADLI****Name of Village: GUBHANA**

Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	13// 6/2 min	Chahi	Private	0.0026
2	13// 7/1 min	Chahi	Private	0.0076
3	13// 14/2 min	Chahi	Private	0.0026
4	13// 15 min	Chahi	Private	0.0102
5	13// 16 min	Chahi	Private	0.0203
6	13// 25 min	Chahi	Private	0.0203

7	41// 20/2 min	Chahi	Private	0.0253
8	41// 21 min	Chahi	Private	0.0405
9	42// 5 min	Chahi	Private	0.0203
10	42// 6/1 min	Chahi	Private	0.0253
11	42// 15/2 min	Barani	Private	0.0253
12	42// 16/1 min	Barani	Private	0.0076
13	45// 1/1 min	Barani	Private	0.0228
14	45// 1/2 min	Barani	Private	0.0051
15	129 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
16	150 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0025
17	835 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0250
<b>Sub Total</b>				<b>0.2684</b>

**Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BADLI**

**Name of Village: BUPANIA**

Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2// 16/1 min	Nahari	Private	0.0228
2	2// 25/2/1 min	Nahari	Private	0.0178
3	2// 25/2/2 min	Nahari	Private	0.0253
4	12// 4/2/1 min	Nahari	Private	0.0026
5	12// 4/2/2 min	Nahari	Private	0.0102
6	12// 5 min	Nahari	Private	0.0279
7	12// 7/1/1/1 min	Nahari	Private	0.0102
8	12// 7/1/1/2 min	Nahari	Private	0.0102
9	12// 7/1/1/3 min	Nahari	Private	0.0051
10	12// 14/2/1 min	Nahari	Private	0.0051
11	12// 14/2/2 min	Nahari	Private	0.0051
12	12// 14/2/3 min	Nahari	Private	0.0026
13	12// 14/2/4 min	Nahari	Private	0.0026
14	12// 17/2/3 min	Nahari	Private	0.0102
15	12// 24/1 min	Nahari	Private	0.0102
16	17// 3/2 min	Nahari	Private	0.0076
17	17// 4 min	Nahari	Private	0.0051
18	17// 8/1 min	Nahari	Private	0.0102
19	17// 13/2 min	Nahari	Private	0.0102
20	17// 18/1 min	Nahari	Private	0.0102
21	17// 23/2 min	Nahari	Private	0.0102
22	34// 3/3 min	Nahari	Private	0.0051
23	34// 8/2 min	Nahari	Private	0.0051
24	34// 13/1 min	Nahari	Private	0.0102
25	34// 18 min	Nahari	Private	0.0102
26	34// 23 min	Nahari	Private	0.0304
27	40// 3 min	Nahari	Private	0.0355
28	40// 8 min	Nahari	Private	0.0102
29	40// 13/1 min	Chahi	Private	0.0051
30	40// 13/2 min	Nahari	Private	0.0026

31	40// 18 min	Nahari	Private	0.0228
32	40// 19/1 min	Chahi	Private	0.0102
33	40// 22 min	Nahari	Private	0.1012
34	40// 23 min	Nahari	Private	0.0076
35	60// 2 min	Nahari	Private	0.0885
36	60// 9/1 min	Barani	Private	0.0304
37	60// 12/2 min	Barani	Private	0.0178
38	60// 19/1 min	Barani	Private	0.0102
39	60// 22 min	Barani	Private	0.0152
40	65// 2/1 min	Nahari	Private	0.0127
41	65// 2/2 min	Nahari	Private	0.0026
42	65// 9/2 min	Nahari	Private	0.0152
43	65// 12/1 min	Nahari	Private	0.0051
44	89// 2 min	Chahi	Private	0.0127
45	89// 9/2/2 min	Chahi	Private	0.0253
46	89// 12 min	Chahi	Private	0.0304
47	89// 19 min	Nahari	Private	0.0304
48	89// 20/1/2/1 min	Nahari	Private	0.0026
49	89// 21/2 min	Nahari	Private	0.0102
50	89// 22 min	Nahari	Private	0.0203
51	96// 1/1/2 min	Nahari	Private	0.0076
52	96// 1/2/2 min	Nahari	Private	0.0203
53	96// 2/1 min	Nahari	Private	0.0026
54	96// 10/2 min	Nahari	Private	0.0253
55	96// 11/2 min	Nahari	Private	0.0304
56	96// 20/2 min	Nahari	Private	0.0152
57	121// 1 min	Nahari	Private	0.0152
58	121// 10/1 min	Nahari	Private	0.0051
59	121// 11 min	Nahari	Private	0.0051
60	121// 20 min	Chahi	Private	0.0026
61	121// 21 min	Nahari	Private	0.0102
62	122// 6/1 min	Nahari	Private	0.0304
63	127// 25/2/2 min	Nahari	Private	0.0076
64	128// 1 min	Chahi	Private	0.0102
65	128// 10 min	Chahi	Private	0.0102
66	128// 11 min	Chahi	Private	0.0051
67	128// 20/2 min	Chahi	Private	0.0026
68	128// 21 min	Chahi	Private	0.0127
69	151// 10 min	Nahari	Private	0.0102
70	151// 11 min	Nahari	Private	0.0102
71	151// 20/1/2 min	Nahari	Private	0.0051
72	151// 20/2/2 min	Bhud	Private	0.0026
73	151// 21/2 min	Nahari	Private	0.0051
74	160// 1/2 min	Nahari	Private	0.0051
75	160// 10/1 min	Nahari	Private	0.0051
76	160// 11/2 min	Nahari	Private	0.0076
77	160// 12/1 min	Nahari	Private	0.0026
78	160// 19/2 min	Nahari	Private	0.0152

79	160// 22/1 min	Nahari	Private	0.0026
80	160// 22/2 min	Nahari	Private	0.0026
81	180// 2 min	Nahari	Private	0.0102
82	180// 9/1 min	Nahari	Private	0.0102
83	180// 12/2 min	Nahari	Private	0.0051
84	187// 2/1 min	Nahari	Private	0.0152
85	187// 2/2/2 min	Nahari	Private	0.0026
86	187// 8 min	Nahari	Private	0.0152
87	187// 13/2 min	Nahari	Private	0.0026
88	187// 18/1 min	Nahari	Private	0.0102
89	187// 23/1/2 min	Nahari	Private	0.0026
90	187// 23/2/2 min	Barani	Private	0.0051
91	203// 3/3/2 min	Nahari	Private	0.0026
92	203// 4 min	Chahi	Private	0.0051
93	203// 7/4 min	Nahari	Private	0.0051
94	203// 14 min	Nahari	Private	0.0051
95	203// 17/2/1 min	Nahari	Private	0.0051
96	203// 17/3/2 min	Nahari	Private	0.0026
97	203// 24/2 min	Nahari	Private	0.0152
98	208// 4/2 min	Barani	Private	0.0102
99	237 min	Gair Mumkin	Government / Private	0.0102
100	242 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0025
101	246 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0025
102	247 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0025
103	259 min	Gair Mumkin Drain	Private	0.1948
104	261 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0025
105	268 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0025
106	271 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0025
107	276 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0025
108	284 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0025
109	293 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0025
110	302 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0025
111	306 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
112	307 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0026
113	1476 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0026
114	1503 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0026
115	1504 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0026
116	1505 min	Gair Mumkin	Government / Private	0.0026
117	1509 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0026
118	1516 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0026
<b>Sub Total</b>				<b>1.4829</b>

Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: **BAHADURGARH**

Name of Village: **DABODHA KHURD**

Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	4// 3 min	Barani	Private	0.0253

2	4// 8/1 min	Chahi	Private	0.0279
3	4// 8/2 min	Chahi	Private	0.0481
4	4// 13/2 min	Barani	Private	0.0658
5	4// 18/1 min	Gair Mumkin Drain	Government	0.0102
6	4// 18/2/1 min	Gair Mumkin Drain	Government	0.0228
7	4// 23/1/1 min	Barani	Private	0.0405
8	4// 23/1/2 min	Barani	Private	0.0304
9	21// 12/2/1 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0026
10	21// 12/2/2 min	Barani	Private	0.0026
11	21// 19/1/2 min	Barani	Private	0.0026
12	21// 19/2 min	Chahi	Private	0.0102
13	21// 21/2 min	Chahi	Private	0.0026
14	21// 22 min	Barani	Private	0.0051
15	32// 16/2/2 min	Barani	Private	0.0026
16	33// 10/3 min	Barani	Private	0.0886
17	33// 10/4 min	Barani	Private	0.0076
18	33// 11/1/1 min	Barani	Private	0.0076
19	33// 11/1/2 min	Barani	Private	0.0456
20	52// 6/1/1 min	Barani	Private	0.0152
21	63// 18/1 min	Nahari	Private	0.0051
22	63// 22/2 min	Barani	Private	0.0051
23	63// 23 min	Nahari	Private	0.0051
24	82// 2/2 min	Nahari	Private	0.0203
25	82// 9/1 min	Nahari	Private	0.0304
26	82// 12/2 min	Gair Mumkin Nahari	Private	0.0355
27	82// 19/1 min	Nahari	Private	0.0152
28	82// 20/2/2 min	Nahari	Private	0.0203
29	82// 21/2 min	Nahari	Private	0.0279
30	90// 15/1/1/2 min	Nahari	Private	0.0026
31	90// 15/1/2/2 min	Nahari	Private	0.0076
32	90// 15/2/1/2 min	Nahari	Private	0.0127
33	90// 15/2/2/2 min	Nahari	Private	0.0051
34	90// 16/2 min	Nahari	Private	0.0127
35	91// 1/1/2 min	Nahari	Private	0.0102
36	91// 1/2 min	Chahi	Private	0.0051
37	91// 10/2 min	Chahi	Private	0.0355
38	91// 11/1 min	Chahi	Private	0.0051
39	140 min	Gair Mumkin Dahana	Government	0.0026
40	142 min	Gair Mumkin Dahana	Government	0.0026
41	162 min	Gair Mumkin Rasta	Government	0.0102
42	163 min	Gair Mumkin Road	Government	0.0810
43	171 min	Gair Mumkin Road	Government	0.0026
44	472 min		Government	0.0026
<b>Sub Total</b>				<b>0.8270</b>



Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BAHADURGARH				
Name of Village: MEHANDIPUR				
Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5// 17/1 min	Chahi	Private	0.0076
2	5// 24/1 min	Chahi	Private	0.0152
3	5// 24/2 min	Chahi	Private	0.0051
4	8// 4 min	Chahi	Private	0.0127
5	8// 8/1/2 min	Nahari	Private	0.0076
6	8// 13/1 min	Chahi	Private	0.0102
7	8// 13/2 min	Nahari	Private	0.0051
8	8// 18/1/2 min	Nahari	Private	0.0076
9	8// 18/2 min	Chahi	Private	0.0051
10	8// 19/3/1 min	Chahi	Private	0.0152
11	8// 19/4/1 min	Chahi	Private	0.0026
12	8// 21 min	Chahi	Private	0.0051
13	8// 22/2 min	Chahi Nahari	Private	0.0102
14	17// 2/1 min	Nahari	Private	0.0076
15	17// 2/2 min	Nahari	Private	0.0051
16	17// 9 min	Nahari	Private	0.0026
17	17// 10/1 min	Nahari	Private	0.0051
18	17// 11/1/2 min	Nahari	Private	0.0102
19	17// 11/2 min	Nahari	Private	0.0102
20	17// 20 min	Nahari	Private	0.0152
21	17// 21/1 min	Nahari	Private	0.0026
22	18// 16/1 min	Barani	Private	0.0026
23	18// 25/2/2 min	Nahari	Private	0.0051
24	18// 25/3 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0026
25	19// 4/2 min	Nahari	Private	0.0026
26	19// 5/1 min	Nahari	Private	0.0127
27	19// 5/2/2 min	Nahari	Private	0.0102
28	19// 6/1 min	Nahari	Private	0.0076
29	19// 6/2 min	Nahari	Private	0.0026
30	19// 14/4 min	Nahari	Private	0.0076
31	19// 15 min	Nahari	Private	0.0178
32	19// 16/1 min	Nahari	Private	0.0026
33	19// 17/1/1 min	Nahari	Private	0.0051
34	19// 24 min	Nahari	Private	0.2630
35	30// 4 min	Nahari	Private	0.0203
36	30// 7/2 min	Nahari	Private	0.0253
37	30// 14 min	Nahari	Private	0.0355
38	30// 17/3 min	Nahari	Private	0.0329

39	30// 18/1/1 min	Nahari	Private	0.0051
40	30// 18/2/2 min	Nahari	Private	0.0076
41	30// 23/2 min	Nahari	Private	0.0430
42	30// 24 min	Nahari	Private	0.0026
43	30// 26 min	Nahari	Private	0.0026
44	31// 3/2 min	Nahari	Private	0.0380
45	64 min	Gair Mumkin Road / Dahana	Private / Government	0.0026
46	73 min	Gair Mumkin Road / Dahana	Private / Government	0.0026
47	76 min	Gair Mumkin Road / Dahana	Private / Government	0.0026
48	78/2/15 min	Gair Mumkin	Private	0.0051
49	155 min	Gair Mumkin Road / Dahana	Private / Government	0.0026
50	172 min	Gair Mumkin Road / Dahana	Private / Government	0.0026

**Sub Total**

**0.7410**

**Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BAHADURGARH**

**Name of Village: JASOUR KHERI**

Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	3// 15/2/1 min	Nahari	Private	0.0026
2	3// 16/1/1 min	Nahari	Private	0.0152
3	3// 16/1/2 min	Nahari	Private	0.0102
4	3// 25/1 min	Nahari	Private	0.0102
5	15// 4/1/1/2 min	Nahari	Private	0.0026
6	15// 4/1/2/2 min	Gair Mumkin Nahar	Private	0.0051
7	15// 7/1 min	Gair Mumkin Water Related	Government	0.0076
8	15// 7/2 min	Nahari	Private	0.0152
9	15// 13/2 min	Nahari	Private	0.0228
10	15// 14/1/1 min	Nahari	Private	0.0026
11	15// 18 min	Nahari	Private	0.1063
12	15// 22/2 min	Nahari	Private	0.0203
13	15// 23 min	Nahari	Private	0.1569
14	34// 25/2 min	Chahi	Private	0.0355
15	35// 1/1/2 min	Nahari	Private	0.0051
16	35// 2/1/2 min	Nahari	Private	0.1493
17	35// 2/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0102
18	35// 3 min	Nahari	Private	0.0203
19	35// 9 min	Nahari	Private	0.1872
20	35// 10/1/1/1 min	Nahari	Private	0.0026

21	35// 11/1/2 min	Nahari	Private	0.0178
22	35// 11/2/2 min	Nahari	Private	0.0026
23	35// 12/1 min	Nahari	Private	0.0633
24	35// 12/2 min	Nahari	Private	0.0026
25	35// 19/1 min	Nahari	Private	0.0051
26	35// 19/2 min	Nahari	Private	0.0152
27	35// 20/1/2 min	Nahari	Private	0.0051
28	35// 20/2/1 min	Nahari	Private	0.2277
29	35// 21/1 min	Nahari	Private	0.1063
30	35// 21/2 min	Nahari	Private	0.0051
31	46// 1 min	Chahi	Private	0.0279
32	47// 5/2 min	Chahi	Private	0.1847
33	47// 6 min	Chahi	Private	0.2100
34	47// 7/1 min	Nahari	Private	0.0076
35	47// 14/2 min	Nahari	Private	0.1366
36	47// 15/1 min	Nahari	Private	0.0810
37	47// 16 min	Nahari	Private	0.0582
38	47// 17/1 min	Nahari	Private	0.1518
39	47// 23/2 min	Gair Mumkin Rajwah	Private	0.0633
40	47// 24 min	Nahari	Private	0.1543
41	67// 3/1/2 min	Gair Mumkin Rajwah	Private	0.1240
42	67// 3/2 min	Nahari	Private	0.0734
43	67// 4 min	Nahari	Private	0.0152
44	67// 8 min	Nahari	Private	0.1923
45	67// 9/1 min	Bhud	Private	0.0076
46	67// 12/2 min	Barani	Private	0.1290
47	67// 13 min	Barani	Private	0.0608
48	67// 19 min	Nahari	Private	0.1973
49	67// 21/2 min	Gair Mumkin Rajwah	Private	0.0532
50	67// 22 min	Nahari	Private	0.1341
51	80// 1/2 min	Gair Mumkin Rajwah	Private	0.1720
52	80// 2 min	Nahari	Private	0.0076
53	80// 10 min	Nahari	Private	0.1113
54	81// 5 min	Nahari	Private	0.0076
55	81// 6/1 min	Nahari	Private	0.0076
56	81// 15/2 min	Bhud	Private	0.0456
57	81// 16/1/1 min	Bhud	Private	0.0127
58	81// 16/2/2 min	Bhud	Private	0.0456
59	81// 24/2 min	Bhud	Private	0.0178
60	81// 25 min	Bhud	Private	0.0127
61	132 min	Gair Mumkin Rajwah	Government	0.0026
62	138 min	Gair Mumkin Nahar/Dahana	Private / Government	0.0329

63	154 min	Gair Mumkin	Private / Government	0.0253
64	256 min	Gair Mumkin Rasta	Private / Government	0.0102
<b>Sub Total</b>				<b>3.8124</b>
<b>Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BAHADURGARH</b>				
<b>Name of Village: KHERI JASOUR</b>				
Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	71// 9/1 min	Nahari	Private	0.0582
2	71// 9/2 min	Nahari	Private	0.0051
3	71// 12 min	Nahari	Private	0.1240
4	71// 20 min	Nahari	Private	0.0279
5	71// 21/1 min	Nahari	Private	0.1164
5	71// 21/2 min	Nahari	Private	0.0026
6	75// 1 min	Nahari	Private	0.0683
7	76// 5/2 min	Nahari	Private	0.0127
8	76// 6 min	Nahari	Private	0.0936
9	76// 15/1 min	Nahari	Private	0.0026
10	76// 15/2 min	Nahari	Private	0.0936
11	76// 16/3 min	Nahari	Private	0.0102
12	76// 16/4 min	Nahari	Private	0.0127
13	76// 17 min	Nahari	Private	0.0658
14	76// 24 min	Nahari	Private	0.0860
15	100// 3/2 min	Nahari	Private	0.0203
16	100// 4 min	Nahari	Private	0.0608
17	100// 8/1 min	Nahari	Private	0.0810
18	100// 13/1 min	Nahari	Private	0.0456
19	100// 13/2 min	Nahari	Private	0.0355
20	100// 18 min	Nahari	Private	0.0203
21	100// 19 min	Nahari	Private	0.0633
22	100// 22 min	Nahari	Private	0.0810
23	109// 1/1 min	Nahari	Private	0.0253
24	109// 2 min	Nahari	Private	0.0608
25	109// 10 min	Nahari	Private	0.0860
26	109// 11 min	Barani	Private	0.0532
27	143 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0051
28	144 min	Gair Mumkin Dahana	Private	0.0127
29	153 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0152
30	177 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
31	257 min	Gair Mumkin Rasta	Private	0.0051
<b>Sub Total</b>				<b>1.4560</b>

Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BAHADURGARH				
Name of Village: NILOTHI				
Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	75// 18/1/1 min	Nahari	Private	0.0026
2	75// 18/1/2 min	Nahari	Private	0.0228
3	75// 18/2/1 min	Nahari	Private	0.0253
4	75// 22/1/2 min	Nahari	Private	0.0025
5	87// 15/2 min	Nahari	Private	0.0102
6	87// 16/1 min	Nahari	Private	0.0051
7	87// 24/1/2 min	Nahari	Private	0.0026
8	87// 24/2/2 min	Nahari	Private	0.0051
9	87// 25 min	Nahari	Private	0.0178
10	88// 10/2/2 min	Barani	Private	0.0203
11	88// 11/1 min	Barani	Private	0.2049
12	98// 4/4 min	Nahari	Private	0.0253
13	98// 7 min	Nahari	Private	0.0203
14	98// 13/2 min	Nahari	Private	0.0228
15	98// 14/1 min	Nahari	Private	0.0051
16	98// 14/2 min	Nahari	Private	0.0026
17	98// 18/1 min	Nahari	Private	0.0329
18	98// 22/1 min	Nahari	Private	0.0051
19	98// 23/1 min	Nahari	Private	0.0304
20	102// 2/1/2 min	Nahari	Private	0.0051
21	102// 2/2/2 min	Nahari	Private	0.0304
22	291 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0026
23	342 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0026
<b>Sub Total</b>				<b>0.5044</b>
Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BAHADURGARH				
Name of Village: JAKHODA				
Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	11// 11 min	Nahari	Private	0.0152
2	11// min	Nahari	Private	0.0178
3	12// 16/2 min	Nahari	Private	0.0026
4	18// 25/1/1 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0127
5	18// 25/1/2/1 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0026
6	18// 25/1/2/2 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0026
7	19// 18 min	Nahari	Private	0.0026
8	19// 20/2 min	Nahari	Private	0.0026
9	19// 21/3/2 min	Nahari	Private	0.0076

10	36// 1/1 min	Nahari	Private	0.0026
11	36// 1/2/1 min	Nahari	Private	0.0051
12	36// 1/2/2 min	Nahari	Private	0.0026
13	37// 4/1 min	Nahari	Private	0.0076
14	37// 5/1/2 min	Chahi	Private	0.0051
15	37// 5/2 min	Nahari	Private	0.0026
16	37// 6/1 min	Nahari	Private	0.0051
17	37// 7/1 min	Nahari	Private	0.0076
18	37// 7/2 min	Nahari	Private	0.0102
19	37// 8 min	Nahari	Private	0.0076
20	37// 13 min	Nahari	Private	0.0051
21	37// 14/1 min	Nahari	Private	0.0051
22	84 min	Gair Mumkin Nahar	Private	0.0127
23	90 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0026
24	91 min	Gair Mumkin Road / Dahana	Private	0.0051
25	117 min	Gair Mumkin Road	Private	0.0152
<b>Sub Total</b>				<b>0.1682</b>

**Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BAHADURGARH**

**Name of Village: MANDOTHI**

Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1164/2 min	Nahari	Private	0.0543
2	1165 min	Nahari	Private	0.0048
3	1171/1 min	Nahari	Private	0.0993
4	1172 min	Nahari	Private	0.0233
5	1173/2 min	Nahari	Private	0.0546
6	1178/2 min	Nahari	Private	0.0166
7	1179/1 min	Nahari	Private	0.0273
8	1182/2 min	Nahari	Private	0.0133
9	1199/1 min	Nahari	Private	0.0079
10	1200/2 min	Nahari	Private	0.0172
11	1201/2 min	Nahari	Private	0.0168
12	1203 min	Nahari	Private	0.0210
13	1206 min	Nahari	Private	0.0435
14	1314 min	Gair Mumkin Road Khas	Government	0.0148
15	1317/1 min	Nahari	Private	0.0910
16	1320/1/2 min	Nahari	Private	0.0944
17	1321/3/1 min	Nahari	Private	0.0724
18	1321/2 min	Gair Mumkin Nahar	Government	0.0154
19	1325/1 min	Gair Mumkin Nahar	Government	0.0399
20	1325/2 min	Gair Mumkin Nahar	Government	0.0202
21	1326 min	Gair Mumkin Nahar	Government	0.0207

22	1400 min	Nahari	Private	0.5397
23	1494 min	Nahari	Private	0.0206
24	1496 min	Nahari	Private	0.1263
25	1497 min	Nahari	Private	0.2382
26	1498 min	Nahari	Private	0.0180
27	1837 min	Nahari	Private	0.2481
28	1838 min	Nahari	Private	0.0272
29	5347/1839 min	Gair Mumkin Nahar	Government	0.0509
30	5348/1839 min	Nahari	Private	0.0956
31	5349/1839 min	Nahari	Private	0.1567
32	1840 min	Nahari	Private	0.0527
33	1842 min	Nahari	Private	0.1323
34	1843 min	Nahari	Private	0.1091
35	1845 min	Nahari	Private	0.0181
36	1851/2 min	Nahari	Private	0.0625
37	1852 min	Nahari	Private	0.1104
38	1853 min	Nahari	Private	0.1982
39	1859 min	Nahari	Private	0.0158
40	1866 min	Nahari	Private	0.0366
41	1867 min	Nahari	Private	0.0909
42	1868 min	Nahari	Private	0.1374
43	1869 min	Nahari	Private	0.1672
44	1874 min	Nahari	Private	0.0379
45	1876 min	Nahari	Private	0.3114
46	5369/1878 min	Barani	Private	0.0426
47	1879 min	Nahari	Private	0.1952
48	2166 min	Nahari	Private	0.0245
49	2169 min	Nahari	Private	0.1134
50	2276 min	Nahari	Private	0.0551
51	2281 min	Barani	Private	0.0427
52	2283 min	Barani	Private	0.0251
53	2284 min	Barani	Private	0.0380
54	2285 min	Barani	Private	0.1134
55	2286 min	Barani	Private	0.0718
56	2287 min	Nahari	Private	0.1320
57	2288 min	Nahari	Private	0.0839
58	2289 min	Nahari	Private	0.0736
59	2290 min	Nahari	Private	0.0690
60	2292 min	Nahari	Private	0.0072
61	2303 min	Nahari	Private	0.1860
62	2305 min	Nahari	Private	0.0513
63	2306 min	Nahari	Private	0.0503
64	2309 min	Nahari	Private	0.0328
65	2373 min	Nahari	Private	0.0563

66	2374/2 min	Nahari	Private	0.0233
67	2375 min	Nahari	Private	0.0404
68	2380/1 min	Nahari	Private	0.0594
69	2380/2 min	Nahari	Private	0.0919
70	2384 min	Nahari	Private	0.1483
71	2386 min	Nahari	Private	0.0821
72	2391/2 min	Nahari	Private	0.0728
73	2394 min	Nahari	Private	0.0315
74	2447/2 min	Nahari	Private	0.0655
75	2448/2 min	Nahari	Private	0.0141
76	2450/2 min	Nahari	Private	0.1736
77	2451 min	Nahari	Private	0.2052
78	2452 min	Nahari	Private	0.1132
79	2453 min	Nahari	Private	0.0645
80	2511 min	Gair Mumkin Road	Government	0.0236
81	2534 min	Nahari	Private	0.1552
82	5169/2537 min	Gair Mumkin Road	Government	0.0173
83	5170/2537 min	Gair Mumkin Nahar	Government	0.0341
84	5171/2537 min	Nahari	Private	0.0895
85	2554 min	Gair Mumkin Road/ Nahar	Government	0.0667
86	2579/2 min	Nahari	Private	0.0224
87	2580/2 min	Nahari	Private	0.1030
88	2581/2 min	Nahari	Private	0.0671
89	2582/2 min	Nahari	Private	0.0176
90	2583 min	Nahari	Private	0.0509
<b>Sub Total</b>				<b>7.0679</b>

**Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: BAHADURGARH**

**Name of Village: ASAUDHA TODRAN**

Serial Number	Survey Number Rect. No./Field No.	Nature of Land	Type of Land	Land Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	150/2 min	Gair Mumkin Johad	Private	0.0490
2	153 min	Nahari	Private	0.0307
3	185/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0061
4	223 min	Chahi	Private	0.0202
5	225/1 min	Chahi	Private	0.0813
6	226/1/2 min	Chahi	Private	0.1035
7	227 min	Chahi	Private	0.2519
8	228/3/2 min	Chahi	Private	0.0368
9	276 min	Barani	Private	0.0634
10	277/2 min	Chahi	Private	0.0939
11	278/2 min	Chahi	Private	0.0728
12	286 min	Nahari	Private	0.0048



13	287 min	Nahari	Private	0.0424
14	288/1 min	Nahari	Private	0.0645
15	363/2/2 min	Gair Mumkin Rasta	Government	0.0390
16	367 min	Gair Mumkin Railway	Government	0.1495
17	3646/430/2 min	Gair Mumkin Road	Government	0.0283
18	432/1 min	Nahari	Private	0.0647
19	433/2 min	Nahari	Private	0.2556
20	447 min	Nahari	Private	0.1119
21	448 min	Nahari	Private	0.1307
22	449/2 min	Nahari	Private	0.3067
23	450 min	Nahari	Private	0.1366
24	595 min	Banjar Kadeem	Private	0.0735
25	596/1/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0626
26	3472/604/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0698
27	605 min	Barani	Private	0.0810
28	608/1 min	Gair Mumkin	Private	0.0616
29	3450/609/2 min	Gair Mumkin	Private	0.0718
30	3363/630/2 min	Gair Mumkin Road	Government	0.1345
31	1027 min	Nahari	Private	0.0540
32	2095/1/1 min	Nahari	Private	0.0544
33	2433 min	Nahari	Private	0.0051
34	2560/1/2 min	Gair Mumkin Road	Government	0.0051
35	3444/274-275/1 min	Nahari	Private	0.0405
<b>Sub Total</b>				<b>2.8582</b>
<b>Grand Total</b>				<b>31.3663</b>

[F. No. 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

A. K. SINGHAL, Chief Administrative Officer (Const.)